



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 8—अक्टूबर 14, 2005 (आश्विन 16, 1927)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 8—OCTOBER 14, 2005 (ASVINA 16, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय  
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2005

सं. 469, दिनांक 7 सितम्बर 2005—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1977) के अधिकारी श्री अमित कौशिश को दिनांक 02 सितम्बर 2005 के पूर्वाह्न से 01 सितम्बर 2010 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. सी. लूथर  
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

सेना शाखा

सं. 470, दिनांक 9 सितम्बर 2005—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना  
कमीशन

लैफ्टिनेंट बनाये जाते हैं

लै. पुनोत दधीच (टी ए सं.-42574) इन्फैन्ट्री, 30 अप्रैल 2003

अपराह्न

लै. प्रवीन अग्निहोत्री (टी ए सं.-42588) इन्फैन्ट्री, 22 अगस्त 2003

पूर्वाह्न

भूतपूर्व सब-लैफ्टिनेन्ट शान्तनु नारायण शिम्पी (टी ए सं.-42590) इन्फैन्ट्री,  
31 दिसम्बर 2003 पूर्वाह्न

लै. पाणिकर अरविन्द कृष्णा (टी ए सं.-42592) इन्फैन्ट्री, 16 जनवरी  
2004 अपराह्न

लै. करण मोहन कदम (टी ए सं.-42593) इन्फैन्ट्री, 17 जनवरी 2004  
पूर्वाह्न

लै. अक्षय पारीक (टी ए सं.-42594) इन्फैन्ट्री, 02 फरवरी 2004 पूर्वाह्न

लै. गगन मिश्रा (टी ए सं.-42596) इन्फैन्ट्री, 06 फरवरी 2004 पूर्वाह्न

लै. दीपक कटोच (टी ए सं.-42597) इन्फैन्ट्री, 09 फरवरी 2004 पूर्वाह्न

लै. सुपर्ण सिंह शेखावत (टी ए सं.-42598) इन्फैन्ट्री, 09 फरवरी 2004  
पूर्वाह्न

लै. एच अमरबीर सिंह (टी ए सं.-42599) इन्फैन्ट्री, 09 फरवरी 2004  
पूर्वाह्न

लै. ठाकरे मनोजीत मतिमोहन (टी ए सं.-42600) इन्फैन्ट्री, 09 फरवरी  
2004 पूर्वाह्न

लै. शिराज अहमद (टी ए सं.-42601) इन्फैन्ट्री, 09 फरवरी 2004  
अपराह्न

लै. श्याम बिहारी सिंह (टी ए सं.-42602) इन्फैन्ट्री, 13 फरवरी 2004 पूर्वाह्न

लै. यौगेन्द्र गोड़ (टी ए सं.-42603) इन्फैन्ट्री, 27 फरवरी 2004 अपराह्न

लै. गितेश राजा (टी ए सं.-42604) इन्फैन्ट्री, 17 मार्च 2004 पूर्वाह्न

लै. अनिल बल्हेरा (टी ए सं.-42606) इन्फैन्ट्री, 29 जून 2004 पूर्वाह्न

लै. रोहित राजेन्द्र गाडकरी (टी ए सं.-42608) इन्फैन्ट्री, 07 फरवरी 2004 पूर्वाह्न

लै. रजत दत्ता (टी ए सं.-42609) इन्फैन्ट्री, 16 जुलाई 2004 पूर्वाह्न

लै. कुणाल थापा (टी ए सं.-42610) इन्फैन्ट्री, 05 अगस्त 2004 पूर्वाह्न

लै. सतेन्द्र किन्हा (टी ए सं.-42611) इन्फैन्ट्री, 21 जून 2004 पूर्वाह्न

लै. अनूप कुमार ओझा (टी ए सं.-42612) इन्फैन्ट्री, 08 अगस्त 2004 पूर्वाह्न

लै. सुशील कुमार गुले (टी ए सं.-42613) इन्फैन्ट्री, 16 अगस्त 2004 पूर्वाह्न

लै. संदीप उपाध्याय (टी ए सं.-42614) इन्फैन्ट्री, 20 अगस्त 2004 पूर्वाह्न

लै. मेहताब सिंह संधु (टी ए सं.-42615) इन्फैन्ट्री, 04 अगस्त 2004 पूर्वाह्न

लै. सेमा मुघावी योथो (टी ए सं.-42616) इन्फैन्ट्री, 20 अगस्त 2004 अपराह्न

लै. पी श्रीधर चक्रवर्ती (टी ए सं.-42617) इन्फैन्ट्री, 24 अगस्त 2004 अपराह्न

लै. पवन रौथाण (टी ए सं.-42618) इन्फैन्ट्री, 24 अगस्त 2004 पूर्वाह्न

लै. रामनिवास बिन्नौरिया (टी ए सं.-42619) इन्फैन्ट्री, 25 अगस्त 2004 पूर्वाह्न

लै. प्रद्युमन सिंह राठौर (टी ए सं.-42620) इन्फैन्ट्री, 01 सितम्बर 2004 पूर्वाह्न

लै. गौड़ वैभव चन्द्रशेखर (टी ए सं.-42621) इन्फैन्ट्री, 02 सितम्बर 2004 अपराह्न

लै. दुबे दुरगेश राधेश्याम (टी ए सं.-42622) इन्फैन्ट्री, 04 सितम्बर 2004 पूर्वाह्न

लै. सिद्धीकी सलिमुद्दीन (टी ए सं.-42623) इन्फैन्ट्री, 15 सितम्बर 2004 पूर्वाह्न

लै. संदीप कक्कड़ (टी ए सं.-42624) इन्फैन्ट्री, 12 अक्टूबर 2004 पूर्वाह्न

लै. राकेश कुमार वर्मा (टी ए सं.-42625) इन्फैन्ट्री, 16 अक्टूबर 2004 पूर्वाह्न

लै. राजपाल सिंह (टी ए सं.-42626) इन्फैन्ट्री, 01 नवम्बर 2004 पूर्वाह्न

लै. संदीप सिंह (टी ए सं.-42627) इन्फैन्ट्री, 01 नवम्बर 2004 पूर्वाह्न

लै. धीरज कुमार सिंह (टी ए सं.-42628) इन्फैन्ट्री, 13 सितम्बर 2004 पूर्वाह्न

लै. जयदीप शेखावत (टी ए सं.-42629) इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004 पूर्वाह्न

लै. नवजोत सिंह थिण्ड (टी ए सं.-42630) इन्फैन्ट्री, 01 नवम्बर 2004 अपराह्न

लै. मर्विन एन्ड्रयु बर्ड स्टर्जन रिंझा (टी ए सं.-42631) इन्फैन्ट्री, 18 नवम्बर 2004 पूर्वाह्न

लै. क्रिस्टी क्लैमेन्ट (टी ए सं.-42632) इन्फैन्ट्री, 27 नवम्बर 2004 पूर्वाह्न

लै. विक्रम सिंह यादव (टी ए सं.-42633) इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2004 पूर्वाह्न

लै. विरेन्द्र सिंह चन्देल (टी ए सं.-42634) इन्फैन्ट्री, 07 दिसम्बर 2004 पूर्वाह्न

लै. शमीन्द्र सिंह जसरोटिया (टी ए सं.-42635) इन्फैन्ट्री, 07 अक्टूबर 2004 अपराह्न

लै. रवीन्द्र कुमार यादव (टी ए सं.-42636) इन्फैन्ट्री, 24 अक्टूबर 2004 पूर्वाह्न

लै. केवल कृष्ण (टी ए सं.-42637) इन्फैन्ट्री, 03 जनवरी 2005 पूर्वाह्न

बी के मल्होत्रा  
अवर सचिव

सं. 471, दिनांक 13 सितम्बर 2005--थल सेना अनुदेश 15/79 व थल सेना अनुदेश 10/02 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
(अल्पकालीन कमीशन)  
लैफ्टि. के पद पर (परख पर)

डी एस-12139के राठौड़ हर्षद नारायण, 02 अप्रैल 2005

डी एस-12140वाई अनूप गोपी, 04 अप्रैल 2005

डी एस-12141एफ कमल वर्मा, 07 अप्रैल 2005

डी एस-12142के टी शमानन्द सिंह, 09 अप्रैल 2005

डी एस-12143एम नितिन कौशल, 14 अप्रैल 2005

डी एस-12144पी के सेनथिल कुमार, 14 अप्रैल 2005

डी एस-12145एक्स विकास दीप, 14 अप्रैल 2005

डी एस-12147एच शादाब अहमद, 15 अप्रैल 2005

डी एस-12148एल दीप जेक्कब, 16 अप्रैल 2005

डी एस-12149एन अशोक ए राठौड़, 19 मई 2005

डी एस-12151एल रवि भट्ट, 19 अप्रैल 2005

डी एस-12152एन दीप्तिमान शुक्ल, 20 अप्रैल 2005

डी एस-12153डब्ल्यू कृष्ण कुमार, 21 अप्रैल 2005

डी एस-12146ए राहुल प्राताप सिंह, 15 अप्रैल 2005

डी एस-12150एच रोहित बाहरी, 19 अप्रैल 2005

डी एस-12155एफ सुनीता, 19 मई 2005

डी एस-12156के प्रदीप एस एस, 20 मई 2005

डी एस-12157एम एकता बदानी, 25 मई 2005

डी एस-12158पी एम रिनेश, 25 मई 2005

डी एस-12159एक्स हर्षवर्धन बी, 25 मई 2005

डी एस-12160एम कुमार सुन्दरम आर, 26 मई 2005

डी एस-12161पी विवेक प्रधान, 28 मई 2005

डी एस-12162एक्स मनीश कुमार, 30 मई 2005

डी एस-12163ए नरेन्द्र सिंह, 01 जून 2005

डी एस-12164एच पी बी एन चैतन्य पी, 04 जून 2005

डी एस-12166एन एन मोहन रंगन, 09 जून 2005

डी एस-12167डब्ल्यू राज कुमार एस, 11 जून 2005

डी एस-12168वाई गिरीश एस, 14 जून 2005

थल सेना अनुदेश 15/79 तथा उसमें जारी संशोधनों के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

लेफ्टि. के पद पर (परख पर)

डी एस-12070एल, पीटर देवदास, ए डी कोर, बी डी एस बंगलौर, 17 जून 2002

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 दिसम्बर 2001 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए छः महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

(15 मार्च 2003 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है)।

परमजीत सिंह

मेजर जनरल

ए डी जी डी एस

नेवी ब्रांच

नौसेना मुख्यालय

सं. 472, दिनांक 7 सितम्बर 2005 --राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सीमित विभागीय प्रतियोगिता

परीक्षा 2003 में सफल होने पर सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नत होने पर दिनांक 29 जुलाई 2005 से वेतनमान रु. 6500-200-10500 में नियुक्त करते हैं :-

श्री हिमांशु द्विवेदी

श्री राजेश नारंग

श्रीमती नमिता मलिक

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. 473, दिनांक 13 सितम्बर 2005 --राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/22258/1/पी ओ 3(ए)/1611/डी ओ आई ए/डी (एयर-III) दिनांक 29 अक्टूबर 1982 के उपबन्धों के तहत औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

वैमानिक अभियांत्रिकी इलेक्ट्रिकल शाखा

फ्लाईंग अफसर मनीष बालानी (27875), दिनांक 05 जनवरी 2004 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को प्रदत्त अल्प सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की पत्र संख्या वा से मु/22258/1/पी ओ 3(ए)/1611/डी ओ आई ए/वायु-III) दिनांक 19 अक्टूबर 82 और वायु सेना अनुदेश 2/73 शुद्धिपत्र 10/84 और वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत फ्लाईंग अफसर रैंक में स्थायी कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

वैमानिक अभियांत्रिकी मैकेनिकल शाखा

फ्लाईंग अफसर नितिन थोमस साम (27574), गोपाल कृष्णन वेनु कुरूप (27832), बसिल ओस्कर रेबेरो (27833), जहागीरदार मिलेश गोविन्द (27834), अनिल कुमार (27835), नरेडुला विश्वनाथ (27836), सुरेश कुमार (27837), कामिली श्री फानी कुमार (27838), हजारो मनोज रामाराव (27839), नगेन्द्र डी ए (27840), युद्धवीर सिंह (27841), विशाल गोयल (27842), राजारतिनम कार्तिक (27843), हिवरे सचिन भीमराव (27844), नटराजन राजागोपालन (27845), समीर सुधीर देशमुख (27846), रामचन्द्रन प्रदीप (27847), शिशिर चतुर्वेदी (27926), आनन्द दत्त (27932), गोला जोशवा (27933), सन्नी व्यास (27934) --दिनांक 03 जनवरी 2005 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी इलेक्ट्रिकल शाखा

फ्लाईंग अफसर सुदीश नारायणन (27611), वाई अनन्त नारायणन (27614), सुबादीप मैती (27622), पेरुसोमला राघवचार्या (27629), डिमेलो फ्रांसिस मैथ्यू (27894), उपदरस्ता विद्यासागर लक्ष्मया (27895), आर यशवंत राज (27896), अरुण सिंह (27897), एम धनशेखर (27898), मुकुल कैयस्था (27899), अब्दुल रहमान (27900), श्रीकान्त पी ए (27901), मनीष दहिया (27902), सचिन सदाशिवन (27903), आशिश तिवारी (27904), तेजेन्द्र सिंह बथ (27905), टी अरुण प्रसाद (27906),

अरुण जाधव (27907), विटस सुरुन विनसेन्ट (27908), रजनीश थोटा (27909), दीप्तिमन मुखी भट्टाचार्या (27910), गौरव रामकृष्णन करनदिकर (27911), धर्मवीर (27912), चुडासमा नरेन्द्र सिंह जुबानसिंह (27913), सौरभ कालरा (27914), योगेश परिहार (27915), तरुण शक्ति दहिया (27916), सचिन टोम जोहन (27917), अभिनय शुक्ला (27918), पृथ्वीराज सिंह चौहान (27919), तुषार जोशी (27920), विनीत गर्ग (27921), सतीश कुमार पाण्डरी (27922), पुरणदेव ओझा (27923), विश्वदीप दास (27924), गिरीश कृष्णन (27925), सुरदीपनाथ (27928), काशीनाथ रामचन्द्रन (27929), कलोल बोस (27930), कार्तिक सुब्रह्मनियम (27931)---दिनांक 03 जनवरी 2005 से।

## राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 474, दिनांक 12 सितम्बर 2005 निम्नलिखित उपकुलपतियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल के अवैतनिक रैंक प्रदान किए जाते हैं और अपने-अपने विश्वविद्यालयों के उपकुलपति की नियुक्ति की अवधि तक के लिए उन्हें कर्नल कमांडेन्ट के पद पर निम्नलिखितानुसार नियुक्त किया जाता है :-

उपकुलपति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	उपकुलपति के पद पर नियुक्ति की तारीख
1	2	3
प्रो. (डा.) वि बालमोहनदास	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर, आंध्र प्रदेश	06 मई 2005
प्रो. (डा.) एस जयराम रेड्डी पी.एच.डी.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	19 दिसम्बर 2004
डा. इरेश सदाशिव स्वामी	शोलापुर विश्वविद्यालय, शोलापुर	24 जुलाई 2004
डा. पी मरुदमुत्तु, एम.एस.सी. पी.एच.डी., एफ.आई.सी.सी., एफ.आई.सी.एस., एम.एन.ए.सी., एफ.टी.एन.ए.सी.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, पालकालाईनगर, मदुरै	07 मार्च 2005
प्रो. अरूण कुमार	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	19 नवम्बर, 2004

जितेन्द्र सिंह

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (एम एस)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को प्रदत्त औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/22258/1/पी ओ 3(ए)/1611/DOIA/डी (एयर-III) दिनांक 19 अक्टूबर 1982 के उपबन्धों के तहत फ्लाईंग अफसर रैंक में स्थायी कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं :-

## भारतीय वायु सेना

## वैमानिक अभियांत्रिकी मैकेनिकल शाखा

फ्लाईंग अफसर प्रीतम शेटी (27824), रंजन विश्वकर्मा (27825), अर्पण मिश्रा (27826), महेंद्रन नटराजन (27827), विनोद संजीव (27828), निखिल एम (27829), हर्षवर्धन एस कोटुर (27830), सौरभ मोहन (27831)---दिनांक 03 जनवरी 2005 से।

## वैमानिक अभियांत्रिकी इलेक्ट्रिकल शाखा

फ्लाईंग अफसर अभिनन्दन दास (27848), नवीन कुमार जयराम (27849), संदीप देबनाथ (27850), सम्पत कृष्णन मुथुवेल (27851), विक्रम छिब्बर (27852), पंकज कुमार पाधी (27853), तुषार रस्तोगी (27854), बन्हेलांग द्वारसर गिरि (27855), अभिशेक सिंह (27856), मनीष कुमार वर्मा (27857), निमित्त कौरा (27858), अनुपम कपूर (27859), नयन कुमार सेन (27860), रविकुमार बाजिया (27862), रविशंकर पाटिल (27863), अभिशेक त्यागी (27864), चिन्तन खन्ना (27865), नितिन बक्शी (27866), प्रसाद कल्यात थजाथु वितिल (27867), बलजीत सिंह आनन्द (27868), विद्यानाथन मगेष (27869), नागराज कटयन (27870), विहंग प्रमोद नाइकर्णी (27871), किशोर राजू गड्डिराजू (27872), सुधीर परमेश्वरन (27873), गौरव शर्मा (27874), मनीष बालानी (27875), गिरिश चन्द्र मथपाल (27877), मेहुल गुप्ता (27878), पंकज राजन (27879), मनीष रस्तोगी (27880), अब्राहम जेकब (27881), एम चन्दु (27882), अमरदीप सिंह (27883), रोहित आनन्द (27884), राधाकृष्णन रविन्द्रनाथ सेनियल कुमार (27885), आशीश कर्ण (27886), मनु गोपाल (27887), सुमित शर्मा (27888), दीपक कृष्णनन्दा प्रभु (27889), गौरव द्विवेदी (27890), निशान्त वर्मा (27891), अनिरुध्न मैता (27892), गणेश कनन कनन (27893)---03 जनवरी 2005 से।

संजीव श्रीवास्तव  
विंग कमाण्डर  
जे डी पी ओ 3(डी)

## (थल सेना विभाग)

सं. 475, दिनांक 13 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारियों को एक वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक पूरा करने पर सेना अनुदेश 15/79 के अन्तर्गत अल्पकालीन कमीशन में पकवा करते हैं :-

## नियमित सेना

## सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

## अल्पकालीन कमीशन

## स्थायीकरण

कैप्टन परविन्द्र शर्मा (डीएस-12114एक्स), 19 फरवरी 2004

कैप्टन प्रमोद उद्गनी (डीएस-12118एन), 03 मार्च 2004

कैप्टन अलोक कुमार (डीएस-12119डब्ल्यू), 05 मार्च 2004

कैप्टन वी पाल दीपक (डीएस-12121एन), 05 मार्च 2004

परमजीत सिंह  
मेजर जनरल  
ए डी जी डी एस

## सेना शाखा

सं. 476, दिनांक 7 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

## नियमित सेना

## इन्फैन्ट्री

## डोगरा रेजिमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुलदीप सिंह राणा (सं. 3982888डब्ल्यू अब जेसी-520082एक्स), 01 नवम्बर 2004

हवलदार जितेन्द्र कुमार भारद्वाज (सं. 3993146डब्ल्यू अब जेसी-520083ए), 24 दिसम्बर 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 नवम्बर 2004 से)

हवलदार नरेश चन्द जसरोटिया (सं. 3987408एल अब जेसी-520084एच), 07 नवम्बर 2004

हवलदार जगदीप सिंह (सं. 3987697एल अब जेसी-520085एल), 01 दिसम्बर 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 नवम्बर 2004 से)

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं. 3984389ए अब जेसी-520086एन), 01 जनवरी 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 नवम्बर 2004 से)

हवलदार चरनजी लाल शर्मा (सं. 3984722एन अब जेसी-520087डब्ल्यू), 10 नवम्बर 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 नवम्बर 2004 से)

हवलदार जसमेर सिंह (सं. 3985005एम अब जेसी-520088वाई), 16 जनवरी 2005

हवलदार ठाकुर दास पाल (सं. 3987319एम अब जेसी-520115एक्स), 29 मार्च 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से)

हवलदार देस राज (सं. 3982550एल अब जेसी-520116ए), 01 फरवरी 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से)

हवलदार विजय कुमार (सं. 3983814एन अब जेसी-520117एच), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार हरीष चन्द (सं. 3984262एक्स अब जेसी-520118एल), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार देश राज (सं. 3984331एच अब जेसी-520119एन), 29 दिसम्बर 2004

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 3983195एल अब जेसी-520120एच), 01 जनवरी 2005

हवलदार राम प्रसाद (सं. 3983231एल अब जेसी-520121एल), 01 जनवरी 2005

हवलदार करनैल सिंह (सं. 3984353एफ अब जेसी-520122एन), 01 जनवरी 2005

हवलदार सुदेश कुमार (सं. 3985050वाई अब जेसी-520123डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

हवलदार मोहन सिंह (सं. 3984481वाई अब जेसी-520124वाई), 01 जनवरी 2005

हवलदार बलदीप राज (सं. 3983179एन अब जेसी-520125एफ), 07 फरवरी 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से)

हवलदार रमेश कुमार (सं. 3983260ए अब जेसी-520126के), 01 फरवरी 2005

हवलदार शेर सिंह (सं. 3983633एच अब जेसी-520127एम), 14 अप्रैल 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से)

हवलदार बलकार सिंह (सं. 3985499एफ अब जेसी-520128पी), 01 मार्च 2005

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3988598पी अब जेसी-520129एक्स), 26 मार्च 2005

हवलदार सुदेश कुमार (सं. 3989091ए अब जेसी-520130एम), 01 अप्रैल 2005

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक तेज पाल राणा (सं. 3985327एम अब जेसी-520131पी), 01 अप्रैल 2005

हवलदार लिपिक विजय सिंह (सं. 3985328पी अब जेसी-520132एक्स), 01 अप्रैल 2005

## गढ़वाल राईफल्स

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुफल सिंह (जेसी-528316एल), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-528191वाई), 01 दिसम्बर 2004

## सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) सन्तोष पाल सिंह (जेसी-528249एल), 01 अक्टूबर 2004

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मनबर सिंह (जेसी-529172ए), 01 जनवरी 2004  
 नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-529283एक्स), 01 मार्च 2004  
 नायब सूबेदार बिलोचन सिंह (जेसी-529032एन), 01 जून 2004  
 नायब सूबेदार जगत सिंह रावत (जेसी-529264एम), 01 जून 2004  
 नायब सूबेदार रमेश चन्द त्रिपाठी (जेसी-529033डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004  
 नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-529324डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004  
 नायब सूबेदार धन सिंह (जेसी-529285एच), 20 जुलाई 2004  
 नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-529080एन), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार बुद्धी बल्लभ जोशी (जेसी-529125एन), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार गुमान सिंह (जेसी-529289वाई), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार गंगा सिंह (जेसी-529394पी), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार नत्थू सिंह (जेसी-529320ए), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-529373वाई), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार धीरज सिंह (जेसी-529081डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-529087एक्स), 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-529203पी), 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार मातबर सिंह (जेसी-529188एल), 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-529364एक्स), 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार कुन्दन सिंह (जेसी-529421एन), 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-529053के), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार जगदीश सिंह रावत (जेसी-529156एच), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार पुष्कर सिंह (जेसी-529175एन), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार दिवान सिंह (जेसी-529199एक्स), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार शशी कान्त (जेसी-529201के), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह (जेसी-529236ए), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार सतेन्द्र सिंह (जेसी-529239एन), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार प्रेम प्रकाश उग्रैती (जेसी-529241एल), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह बिष्ट (जेसी-529248पी), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-529259एफ), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार शंकर सिंह (जेसी-529299एच), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार यदुवीर सिंह (जेसी-529267ए), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार आलम सिंह (जेसी-529272एल), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार बिक्रम सिंह (जेसी-529339वाई), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार पार सिंह (जेसी-529304एच), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार गजे सिंह (जेसी-529455एफ), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार पाल सिंह नेगी (जेसी-529335एच), 07 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-529387वाई), 24 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार खेमा नन्द नौटियाल (जेसी-529107ए), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार दाता राम (जेसी-529118एम), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-529112एल), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार केशव सिंह (जेसी-529115एक्स), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार माधो सिंह (जेसी-529340एन), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार गबर सिंह रावत (जेसी-529353एल), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार जगमोहन सिंह (जेसी-529367एल), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार राम कृष्ण (जेसी-529371एन), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह रावत (जेसी-529378एक्स), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार दयाल सिंह (जेसी-529388एफ), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार प्रमोद प्रसाद (जेसी-529389के), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार बचन सिंह (जेसी-529204एक्स), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-529159डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार राम दयाल भारद्वाज (जेसी-529213वाई), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-529251पी), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-529363पी), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-529336एल), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार गोकुल सिंह, सेना मेडल (जेसी-529395एक्स), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-529405डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार दयाल सिंह (जेसी-529425के), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार श्री कृष्ण (जेसी-529433डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-529457एम), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार राजे सिंह (जेसी-529441एफ), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार घुत्थी लाल (जेसी-529477ए), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह, सेना मेडल (जेसी-529480ए), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार यतेन्द्र सिंह (जेसी-529510एम), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार सोबन सिंह (जेसी-529511पी), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार अनिल खन्डूरी (जेसी-529544ए), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार बृजपाल सिंह (जेसी-529545एच), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार चैन सिंह (जेसी-529254एच), 16 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार जम्मल सिंह (जेसी-529071एम), 24 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-529091ए), 25 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार नत्थी प्रसाद (जेसी-529407एफ), 25 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-529337एन), 27 दिसम्बर 2004

#### सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) कुन्दन सिंह रावत (जेसी-528977एल),  
 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार (लिपिक) ताजबर सिंह (जेसी-528978एन), 01 अक्टूबर  
 2004  
 नायब सूबेदार (लिपिक) कुँवर सिंह (जेसी-528979डब्ल्यू), 01 अक्टूबर  
 2004  
 नायब सूबेदार (लिपिक) बिक्रम सिंह (जेसी-528989ए), 01 दिसम्बर  
 2004  
 नायब सूबेदार (लिपिक) बीर सिंह (जेसी-528990पी), 01 दिसम्बर  
 2004

#### सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) हरी दत्त देवराणी (जेसी-528244एम),  
 01 दिसम्बर 2004

#### सूबेदार (म्यूजिशियन) के रैंक में

नायब सूबेदार (म्यूजिशियन) सुरेन्द्र सिंह (जेसी-528986एम),  
 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार (म्यूजिशियन) बालादन दयूधन एस (जेसी-529011एक्स),  
 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार (म्यूजिशियन) सुरेन्द्र सिंह (जेसी-528984एफ),  
 01 नवम्बर 2004

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मनवर सिंह बिष्ट (सं. 4064767एम अब जेसी-529828के),  
 24 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 4065652एल अब जेसी-529829एम),  
 08 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 30 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार गजेन्द्र सिंह (सं. 4067598एफ अब जेसी-529830एफ),  
 01 नवम्बर 2004

हवलदार कुँवर सिंह (सं. 4068098डब्ल्यू अब जेसी-529831के),  
 01 दिसम्बर 2004

हवलदार बिजय सिंह (सं. 4068140के अब जेसी-529832एम),  
 01 दिसम्बर 2004

हवलदार नत्थी सिंह पुंडीर (सं. 4067317ए अब जेसी-529833पी),  
 01 दिसम्बर 2004

हवलदार लक्ष्मण सिंह चौहान (सं. 4066053एक्स अब  
 जेसी-529834एक्स), 07 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार यधुवीर सिंह (सं. 4064332के अब जेसी-529835ए),  
 13 दिसम्बर 2004

हवलदार मेहरवान सिंह (सं. 4065672वाई अब जेसी-529836एच),  
 25 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 24 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार किशन सिंह (सं. 4066256पी अब जेसी-529837एल),  
 10 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 25 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार ओम प्रकाश सिंह (सं. 4063477एच अब जेसी-529838एन),  
 01 जनवरी 2005

हवलदार सूर्या सिंह (सं. 4064411वाई अब जेसी-529839डब्ल्यू),  
 01 जनवरी 2005

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 4064547एच अब जेसी-529840एल),  
 05 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 31 जनवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार बचन सिंह (सं. 4066854वाई अब जेसी-529842डब्ल्यू),  
 01 फरवरी 2005

हवलदार सुदर्शन सिंह (सं. 4068186एम अब जेसी-529843वाई),  
 01 फरवरी 2005

#### नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) अवध राज सिंह (सं. 4065488एन अब  
 जेसी-529841एन), 05 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

	मद्रास रेजिमेंट सूबेदार के रैंक में	नायब सूबेदार साजी एम (जेसी-439149एल), 31 जनवरी 2005
नायब सूबेदार वीसी प्रसन्ना कुमार (जेसी-438943डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004		नायब सूबेदार बी धसरथा राव (जेसी-439268एफ), 02 फरवरी 2005
नायब सूबेदार चन्द्रप्पा बी (जेसी-439006एल), 13 दिसम्बर 2004		नायब सूबेदार एम विनायाकम (जेसी-439082एक्स), 01 मार्च 2005
नायब सूबेदार राजसेखरन चेट्टीयार (जेसी-439047पी), 19 दिसम्बर 2004		नायब सूबेदार टी रवी (जेसी-439186वाई), 01 मार्च 2005
नायब सूबेदार वीरप्पा करवीरन्नावार (जेसी-439062के), 10 जनवरी 2005		नायब सूबेदार के रैंक में हवलदार भीमराव खाने (सं. 2585816एन अब जेसी-439546के), 25 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार रवीन्द्रन एम (जेसी-438999एच), 11 जनवरी 2005		हवलदार वी गोपा कुमार (सं. 2590700एफ अब जेसी-439547एम), 25 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार सुरेश एस (जेसी-439039डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005		हवलदार के सेखरन (सं. 2587894के अब जेसी-439555एल), 10 जनवरी 2005
नायब सूबेदार मोहनन एनके (जेसी-439229एच), 01 अप्रैल 2005		हवलदार सुरेश कुमार टीवी (सं. 2590637एक्स अब जेसी-439548पी), 26 जनवरी 2005
नायब सूबेदार बासप्पा आइहोली (जेसी-439088वाई), 01 मई 2005		हवलदार वड्डे नागराजू (सं. 2592751एन अब जेसी-439559एफ), 31 जनवरी 2005
नायब सूबेदार एफ ए मारिया क्रुज (जेसी-439089एफ), 01 मई 2005	सूबेदार मेजर के रैंक में	हवलदार श्री हरिप्रियन पीके (सं. 2589929एन अब जेसी-439536ए), 01 फरवरी 2005
सूबेदार ए मुथू (जेसी-224176एन), 01 जनवरी 2005		हवलदार वी उमापथी (सं. 2587029एल अब जेसी-439557डब्ल्यू), 06 मार्च 2005×
सूबेदार इब्राहीम टी (जेसी-193667ए), 25 जनवरी 2005*		×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाएगी)
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)		हवलदार के गनपथी (सं. 2589165ए अब जेसी-439556एन), 09 मार्च 2005×
सूबेदार मेजर (संगीतकार) के रैंक में		×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाएगी)
सूबेदार (संगीतकार) पी सुब्रामनी (जेसी-438687एम), 01 दिसम्बर 2004		1 जी आर नायब सूबेदार के रैंक में
सूबेदार के रैंक में		हवलदार तारा बहादुर थापा (सं. 5043358एफ अब जेसी-602594डब्ल्यू), 15 जनवरी 2005*
नायब सूबेदार बी विलियम जोसेफ (जेसी-439092एफ), 01 सितम्बर 2004		*(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2005)
नायब सूबेदार मुरलीधरन के एस (जेसी-439180एक्स), 10 जनवरी 2005		हवलदार पूर्णा बहादुर गुरुंग (सं. 5043655पी अब जेसी-602595वाई), 01 फरवरी 2005
नायब सूबेदार सन्नायलप्पा तलवार (जेसी-439106डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005		कम्पनी हवलदार मेजर चन्द्र बहादुर गुरुंग (सं. 5043721एम अब जेसी-602596एफ), 01 मार्च 2005
नायब सूबेदार मनोगर मी (जेसी-439107वाई), 01 जुलाई 2004		हवलदार भीम बहादुर थापा (सं. 5043629एन अब जेसी-602597के), 01 मार्च 2005
नायब सूबेदार जी थियागाराजन (जेसी-438949एक्स), 01 अक्टूबर 2004		हवलदार कृष्ण बहादुर गुरुंग (सं. 5044307ए अब जेसी-602598एम), 01 मार्च 2005
नायब सूबेदार ए मार्कोन्डेयुलू (जेसी-439265एन), 21 दिसम्बर 2004		हवलदार खीम बहादुर गुरुंग (सं. 5043222एक्स अब जेसी-602599पी), 11 मार्च 2005*
नायब सूबेदार थोटाकुरा नागानिरंजना राव (जेसी-439266डब्ल्यू), 27 जनवरी 2005×		*(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मार्च 2005)
×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जनवरी 2005 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार सी गनेसा पाण्डी (जेसी-439267वाई), 02 जनवरी 2005		



हवलदार रेकम बहादुर पुन (सं. 5043197के अब जेसी-602600वाई),  
02 मार्च 2005 \*

\*(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 05 दिसम्बर 2004)

हवलदार थमान बहादुर थापा (सं. 5043834पी अब जेसी-602601एफ),  
31 मार्च 2005 \*

\*(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 28 फरवरी 2005)

हवलदार मैता बहादुर गुरुंग (सं. 5042990एम अब जेसी-602602के),  
01 अप्रैल 2005 \*

\*(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 28 फरवरी 2005)

हवलदार देव प्रसाद गुरुंग (सं. 5043274एन अब जेसी-602603एम),  
01 अप्रैल 2005 \*

\*(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मार्च 2005)

हवलदार भीम बहादुर गुरुंग (सं. 5043239एल अब जेसी-602604पी),  
13 मार्च 2005 \*

\*(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मार्च 2005)

कम्पनी हवलदार मेजर तुल बहादुर थापा (सं. 5043170एम अब  
जेसी-602605एक्स), 01 अप्रैल 2005

हवलदार विष्णु बहादुर थापा (सं. 5043652एफ अब जेसी-602606ए),  
10 अप्रैल 2005 \*

\*(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2005)

नायब सूबेदार के रैंक में (धर्म गुरु)

नायब सूबेदार (धर्म गुरु)संगम लाल मिश्रा (सं. 602557एच अब  
जेसी-602557एच), 11 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार (धर्म गुरु) राम मनी पाठक (सं. 602558एल अब  
जेसी-602558एल), 19 फरवरी 2005

5 जी आर (एफएफ)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार ईश्वर बहादुर गुरुंग (सं. 5449484एक्स अब  
जेसी-617723एच), 18 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2004 से दी जाएगी)

हवलदार कृष्णा बहादुर राना (सं. 5448758एल अब जेसी-617724एल),  
08 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार तिल प्रसाद गुरुंग (सं. 5448976के अब जेसी-617725एन),  
25 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार दिल बहादुर आले (सं. 5450190डब्ल्यू अब जेसी-  
617726डब्ल्यू), 25 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार दल बहादुर बुढ़ाथोकि (सं. 5449929वाई अब  
जेसी-617727वाई), 19 मार्च 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (म्युजीशियन) के रैंक में

हवलदार (म्युजीशियन) कृष्ण बहादुर गुरुंग (सं. 5449802डब्ल्यू अब  
जेसी-617728एफ), 12 फरवरी 2005

हवलदार (म्युजीशियन) ललित बहादुर गुरुंग (सं. 5449741के अब  
जेसी-617729के), 12 फरवरी 2005

8 जी आर

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार देव बहादुर थापा (सं. 5749814के अब जेसी-623608वाई),  
01 जनवरी 2005

हवलदार फत्ता बहादुर थापा (सं. 5751105एन अब जेसी-623610डब्ल्यू),  
12 मार्च 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार नर सिंह थापा (सं. 5751175एम अब जेसी-623609एफ),  
01 फरवरी 2005

हवलदार जया बहादुर गुरुंग (सं. 5751202एल अब जेसी-623611वाई),  
01 फरवरी 2005

हवलदार रिम लाल श्रेष्ठ (सं. 5750653वाई अब जेसी-623612एफ),  
01 मार्च 2005

हवलदार ऋषि राम पुन (सं. 5752108एन अब जेसी-623613के),  
16 मार्च 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005 से दी जाएगी)

लद्दाख स्काउट्स

सूबेदार मेजर (जी.डी.) के पद पर

सूबेदार छेरिंग फुंचुक (जेसी-204396डब्ल्यू), 30 अक्टूबर 2004/01  
अक्टूबर 2004@

सूबेदार ताशी दोरजे (जेसी-221083एन), 25 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर  
2004@

सूबेदार हेरिंग सैम्फेल (जेसी-221084डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार मेजर ताशी छेपल, वीर चक्र (जेसी-226210एफ), 13 नवम्बर  
2004/01 नवम्बर 2004@

## सूबेदार (जी.डी.) के पद पर

नायब सूबेदार छेवांग नुरुबु (जेसी-588236एक्स), 15 जुलाई 2004/01  
जून 2004@

नायब सूबेदार फुंचुक दोरजे (जेसी-588238एच), 10 सितम्बर 2004/01  
अगस्त 2004@

नायब सूबेदार सोनम रिन्चन (जेसी-588241एल), 26 अक्टूबर 2004/01  
अक्टूबर 2004@

नायब सूबेदार थुग्जे ताशी, सेना मेडल (जेसी-588242एल), 06 नवम्बर  
2004/01 नवम्बर 2004@

नायब सूबेदार शाम लाल (जेसी-588243एन), 10 नवम्बर 2004/01  
नवम्बर 2004@

नायब सूबेदार सोनम थंगदुस (जेसी-588244डब्ल्यू), 05 नवम्बर 2004/01  
नवम्बर 2004@

नायब सूबेदार छेरिंग फुंचुक (जेसी-588245वाई), 05 नवम्बर 2004/01  
नवम्बर 2004@

नायब सूबेदार लोब्जंग छेरिंग (जेसी-588145एन), 22 फरवरी 2005/07  
दिसम्बर 2004@

नायब सूबेदार मोहम्मद सादी (जेसी-588327एफ), 25 फरवरी 2005/07  
दिसम्बर 2004@

नायब सूबेदार सोनम तारगेस, युद्ध सेवा मेडल (जेसी-588328के), 26  
फरवरी 2005/01 जनवरी 2005@

## सूबेदार लिपिक (जी.डी.) के पद पर

नायब सूबेदार (लिपिक) विजय सिंह जसरोटिया (जेसी-588223ए),  
25 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004@

नायब सूबेदार (लिपिक) बलजीत सिंह जम्वाल (जेसी-588224एच),  
15 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004@

नायब सूबेदार (लिपिक) छेरिंग वगदुस (जेसी-588225एल), 05 अक्टूबर  
2004/01 अक्टूबर 2004@

नायब सूबेदार (लिपिक) सोनम छंजोर (जेसी-588226एन), 01 फरवरी  
2005@

## नायब सूबेदार (जी.डी.) के पद पर

हवलदार ताशी टुंदुप (सं. 9922539एन अब जेसी-588362के), 23  
अक्टूबर 2004/04 अगस्त 2004@

हवलदार ताशी नमग्याल (सं. 9923371वाई अब जेसी-588363डब्ल्यू),  
20 नवम्बर 2004/04 अगस्त 2004@

हवलदार छेवांग गिलिक (सं. 9922542एन अब जेसी-588364पी),  
22 नवम्बर 2004/04 अगस्त 2004@

हवलदार रिगिन फुंचुक (सं. 9922795एच अब जेसी-588365एक्स),  
06 नवम्बर 2004/04 अगस्त 2004@

हवलदार छेरिंग अंग्चुक (सं. 9922805एफ अब जेसी-588366ए),  
20 नवम्बर 2004/04 अगस्त 2004@

हवलदार सोनम रिगिन (सं. 9922328एल अब जेसी-588369ए),  
20 नवम्बर 2004/01 सितम्बर 2004@

हवलदार जफर अली (सं. 9922511एन अब जेसी-588371एल),  
22 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004@

हवलदार सोनम तारग्यास (सं. 9923195एम अब जेसी-588372एन),  
06 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004@

हवलदार छेतन ग्यालचन (सं. 9923233एक्स अब जेसी-588373डब्ल्यू),  
02 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004@

हवलदार स्कर्मा ईशे (सं. 9923299एन अब जेसी-588374वाई),  
27 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004@

हवलदार छेरिंग स्तोब्दन, सेना मेडल (सं. 9923308के अब  
जेसी-588375एफ), 02 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004@

हवलदार स्कर्मा ताशी (सं. 9923318एन अब जेसी-588376के),  
22 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004@

हवलदार छेरिंग दोरजे (सं. 9923323वाई अब जेसी-588377एम),  
02 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004@

हवलदार थुक्जे गीलिक (सं. 9923331एक्स अब जेसी-588378पी),  
09 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004@

हवलदार रिगिन चेस्पल (सं. 9923328एक्स अब जेसी-588379एक्स),  
27 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004@

## नायब सूबेदार लिपिक (जी.डी.) के पद पर

हवलदार लिपिक गुलाम मोहम्मद भट्ट (सं. 9923082के अब  
जेसी-588367एच), 07 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004@

हवलदार लिपिक स्कर्मा पलजोर (सं. 9923084पी अब  
जेसी-588368एल), 28 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004@

हवलदार लिपिक स्कर्मा मुटुप (सं. 9923103पी अब जेसी-588370एच),  
20 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004@

हवलदार लिपिक बशीर अहमद गनई (सं. 9922991एच अब  
जेसी-588380एम), 01 फरवरी 2005

हवलदार लिपिक लम्चुंग छेरिंग (सं. 9923086ए अब जेसी-588381पी),  
01 फरवरी 2005

## दिराजपूत रेजिमेंट

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रूप में

हवलदार लिपिक प्रताप सिंह हुडा (सं. 2984008एक्स अब  
जेसी-479622एन), 01 अप्रैल 2005

## नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार सूरज मल (सं. 2982254के अब जेसी-479623डब्ल्यू),  
19 नवम्बर 2004

हवलदार साधू राम वर्मा (सं. 2983840वाई अब जेसी-479624वाई),  
19 नवम्बर 2004

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2984984एन अब जेसी-479625एफ),  
01 फरवरी 2005

हवलदार देवेन्द्र सिंह तोमर (सं. 2981827डब्ल्यू अब जेसी-479626के),  
13 मार्च 2005

(ज्येष्ठता 12 फरवरी 2005 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना)

हवलदार जितेन्द्र सिंह (सं. 2983095के अब जेसी-479627एम),  
04 अप्रैल 2005

(ज्येष्ठता 17 मार्च 2005 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना)

हवलदार रन सिंह (सं. 2984147एफ अब जेसी-479628पी), 01 अप्रैल  
2005

हवलदार राम विलास (सं. 2982570एच अब जेसी-479629एक्स),  
07 मई 2005

(ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना)

हवलदार कौशलेश सिंह (सं. 2980464एल अब जेसी-479630एम),  
01 मई 2005

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 2981780डब्ल्यू अब जेसी-479631पी),  
01 मई 2005

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं. 2983385एफ अब जेसी-479632एक्स),  
01 मई 2005

हवलदार सुशील कुमार (सं. 2882246डब्ल्यू अब जेसी-479633ए),  
01 मई 2005

हवलदार भूरा सिंह (सं. 2983745एम अब जेसी-479634एच), 01 मई  
2005

हवलदार जस राम सिंह (सं. 2983800एक्स अब जेसी-479635एल),  
01 मई 2005

हवलदार धर्म पाल सिंह (सं. 2981019वाई अब जेसी-479636एन),  
08 मई 2005

हवलदार ओम पाल (सं. 2984901एक्स अब जेसी-479637डब्ल्यू),  
12 मई 2005

#### विशेष सूची

##### राजपूत रेजिमेंट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रूप में

मुनिन्द्र कुमार (जेसी-479427डब्ल्यू), 13 अगस्त 2004

पीताम्बर दिवेदी (जेसी-479428वाई), 27 अगस्त 2004

ग्यानेश्वर प्रसाद मिश्र (जेसी-479597ए), 12 फरवरी 2005

9 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में (म्यूजीशियन)

सूबेदार (म्यूजीशियन) राम बहादुर नेपाली (जेसी-629292एम), 01  
दिसम्बर 2004

#### पेराशूट रेजिमेंट

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रहलाद सिंह (जेसी-412610एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-412601एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार सूरज भान (जेसी-412586एफ), 09 जनवरी 2005

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-412605एफ), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जशपाल सिंह (जेसी-412629एल), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार पीतम सिंह (जेसी-412602एम), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार गोपि राम मिश्र (जेसी-412562एक्स), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार नरिन्द्रा सिंह, सेना मेडल (जेसी-412567डब्ल्यू), 10 मार्च  
2005

नायब सूबेदार राम सेवक (जेसी-412624एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार लक्ष्मी नारायण (जेसी-412532एन), 01 मई 2005

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अजित सिंह कसाना (सं. 13617204ए अब  
जेसी-412942डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 13616510एच अब जेसी-412943वाई),  
15 मार्च 2005x

x(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 13614383ए अब जेसी-412844एफ), 08  
मार्च 2005x

x(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005)

हवलदार करतार सिंह (सं. 13615853एम अब जेसी-412945के), 08  
अप्रैल 2005x

x(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005)

हवलदार सुरेश शर्मा (सं. 3988125डब्ल्यू अब जेसी-412946एम), 06  
नवम्बर 2004

हवलदार पेमा राम (सं. 13614613एच अब जेसी-412947पी), 06  
नवम्बर 2004

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 13616266एन अब जेसी-412948एक्स),  
06 नवम्बर 2004

हवलदार क्रिशन मूरारी (सं. 13616302एन अब जेसी-412849ए), 23 अप्रैल 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मार्च 2005)

हवलदार फतेह सिंह (सं. 13616766एल अब जेसी-412950पी), 01 अप्रैल 2005

हवलदार अशोक कुमार (सं. 4069985पी अब जेसी-412827के), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 13617170ए अब जेसी-412930एफ), 19 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2004)

हवलदार श्रीधरा के एस (सं. 13617327एम अब जेसी-412931के), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार छल्ला रामा मोहनाराव (सं. 13617968वाई अब जेसी-412932एम), 01 नवम्बर 2004

हवलदार मुनी स्वामि एस के (सं. 13618015एच अब जेसी-412933पी), 13 दिसम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004)

हवलदार सुरेन्द्रा कुमार (सं. 13616198एल अब जेसी-412935ए), 21 फरवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक सनवारू यादवा (सं. 13615243ए अब जेसी-412929एम), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार लिपिक सुरेन्द्र कुमार (सं. 13618950पी अब जेसी-412834एक्स), 01 जनवरी 2005

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

हवलदार गोपाल छत्री (सं. 13747159एच अब जेसी-579950डब्ल्यू), 21 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार चन्द्र बहादुर गुरूंग (सं. 13747684वाई अब जेसी-579951वाई), 27 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार रसीला राम (सं. 13749453एफ अब जेसी-579952एफ), 21 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार गुरवचन सिंह (सं. 13743569एफ अब जेसी-579953के), 11 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार नारायण सिंह (सं. 13749587ए अब जेसी-579954एम), 08 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार तरलोचन सिंह (सं. 13752298एफ अब जेसी-579955पी), 08 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार अरूण कुमार (सं. 13744926एल अब जेसी-579956एक्स), 20 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार मंजीत सिंह, एस.सी. (सं. 13746412एम अब जेसी-579957ए), 20 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार हरीश चन्द्र (सं. 13748786एफ अब जेसी-579958एच), 21 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार बीरवल (सं. 13748676एम अब जेसी-579959एल), 21 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 13746802पी अब जेसी-579960ए), 21 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार जगदीश लाल (सं. 13746012ए अब जेसी-579961एच), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार सुरेश कुमार साहोटा (सं. 13747064एच अब जेसी-579962एल), 23 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार मेहर सिंह (सं. 13747690एम अब जेसी-579963एन),  
23 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार धमेन्द्र (सं. 13746085एम अब जेसी-579964डब्ल्यू), 03  
नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार दिनेश चन्द (सं. 13748152एल अब जेसी-579965वाई), 11  
नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार कुलवीर सिंह (सं. 13746048वाई अब जेसी-579966एफ),  
02 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार गररुदेव राम (सं. 13746751एम अब जेसी-579967के), 01  
नवम्बर 2004

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं. 13746064डब्ल्यू अब जेसी-579968एम),  
10 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जी. डी. लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक धर्मपाल शर्मा (सं. 13749736एच अब  
जेसी-579949एफ), 30 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

सिख लाईट इन्फेन्ट्री

सूबेदार मेजर (जी.डी.) के रैंक में

सूबेदार जगरूप सिंह (जेसी-508279एफ), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-508260एच), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार भाग सिंह (जेसी-208381एल), 01 फरवरी 2005

सूबेदार मेजर क्लर्क (जी.डी.) के रैंक में

सूबेदार/क्लर्क अमरजीत राम (जेसी-508197वाई), 01 जनवरी 2005

सूबेदार/क्लर्क राम मेहर सिंह (जेसी-508294डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार करमजीत सिंह (सं. 4462248वाई अब जेसी-509194एक्स),  
14 जनवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार बलकार सिंह (सं. 4462048एच अब जेसी-509195ए),  
14 जनवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
08 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 4462495एम अब जेसी-509196एच),  
10 अगस्त 2004

हवलदार शरूप सिंह (सं. 4462664एच अब जेसी-509197एल), 01  
अक्टूबर 2004

हवलदार नाहर सिंह (सं. 4465851एम अब जेसी-509198एन), 01  
अक्टूबर 2004

हवलदार छिन्दरपाल सिंह (सं. 4463947डब्ल्यू अब  
जेसी-509199डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार लखबीर सिंह (सं. 4463499पी अब जेसी-509200ए), 01  
अक्टूबर 2004

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 4468524एम अब जेसी-509201एच),  
01 अक्टूबर 2004

हवलदार मुखतार सिंह (सं. 4465693एच अब जेसी-509202एल),  
15 अक्टूबर 2004

हवलदार जसबिन्दर सिंह (सं. 4463266एम अब जेसी-509203एन),  
10 नवम्बर 2004

हवलदार सुरजीत सिंह दुलची (सं. 4465408वाई अब  
जेसी-509204डब्ल्यू), 12 नवम्बर 2004

हवलदार अवतार सिंह (सं. 4462034एच अब जेसी-509205वाई),  
12 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सिन्दर सिंह (सं. 4465987डब्ल्यू अब जेसी-509206एफ),  
01 दिसम्बर 2004

हवलदार गुरमुख सिंह (सं. 4463140एन अब जेसी-509207के), 28  
फरवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
11 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार गुलजार सिंह (सं. 4463501एफ अब जेसी-509208एम),  
01 जनवरी 2005

कुमाऊँ रेजीमेंट

नायब सूबेदार के पद में

सी.एच.एम. भरत सिंह बिष्ट (सं. 4176408ए अब जेसी-539701पी),  
05 फरवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार खुशाल सिंह (सं. 4177621एम अब जेसी-539693एफ), 06 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी गई।)

सी.एच.एम. गजेन्द्र सिंह (सं. 4180200पी अब जेसी-539705एल), 10 जनवरी 2005/01 अप्रैल 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2004 से दी गई।)

हवलदार जगत सिंह (सं. 4175898एम अब जेसी-539706एन), 10 जनवरी 2005/01 जून 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2004 से दी गई।)

हवलदार आनन्द सिंह नयाल (सं. 4181346पी अब जेसी-539661वाई), 18 दिसम्बर 2004/01 अप्रैल 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2004 से दी गई।)

हवलदार भुवन चन्द्र कापरी (सं. 4175677ए अब जेसी-539660वाई), 20 दिसम्बर 2004/01 अप्रैल 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2004 से दी गई।)

सी.एच.एम. ठाकुर सिंह रावत (सं. 4176170एल अब जेसी-539662एफ), 18 दिसम्बर 2004/01 अगस्त 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अगस्त 2004 से दी गई।)

आर.पी.एच.एम. किशन सिंह (सं. 4178995पी अब जेसी-539710एन), 10 फरवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

सी.क्यू.एम.एच. मोहन चन्द्र (सं. 4179549ए अब जेसी-539711वाई), 10 फरवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार केशव दत्त जोशी (सं. 4175130एक्स अब जेसी-539702एक्स), 29 जनवरी 2005/18 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 18 नवम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार नन्दन सिंह (सं. 4178123एम अब जेसी-539703ए), 05 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार पृथ्वी राज रौतेला (सं. 4177379एच अब जेसी-539704एच), 04 फरवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

सी.एच.एम. हयात सिंह (सं. 41701238पी अब जेसी-539677के), 20 जनवरी 2005/03 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 03 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार हरी सिंह (सं. 4181123एक्स अब जेसी-539677के), 20 जनवरी 2005/03 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 03 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार हर सिंह कठायत (सं. 4182691पी अब जेसी-539687एल), 28 जनवरी 2005/18 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 18 नवम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार मनबर सिंह (सं. 4179777एच अब जेसी-539709एफ), 10 फरवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 4177168ए अब जेसी-539689वाई), 20 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार रूप सिंह (सं. 4176900एल अब जेसी-539688डब्ल्यू), 31 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार जयन सिंह (सं. 4180402डब्ल्यू अब जेसी-539690एन), 20 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4177684पी अब जेसी-539697एक्स), 01 फरवरी 2005/10 दिसम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 10 दिसम्बर 2004 से दी गई।)

सी.क्यू.एम.एच. राज पाल (सं. 4183103एच अब जेसी-539667एक्स), 20 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

सी.क्यू.एम.एच. सुरेश कुमार (सं. 4182973एन अब जेसी-539666एक्स), 20 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार दयानन्द यादव (सं. 4175240एम अब जेसी-539680के),  
14 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 4181372डब्ल्यू अब जेसी-539712एफ),  
22 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार समशेर सिंह (सं. 4178017एन अब जेसी-539713के),  
22 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार लाल चन्द यादव (सं. 3178418एम अब जेसी-539691डब्ल्यू),  
03 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार सी.क्यू.एम.एच. नन्दन सिंह (सं. 14701760एक्स अब जेसी-  
539714एम), 10 फरवरी 2005/07 जनवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 07 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार सी.एच.एम. फकीर सिंह (सं. 4179019एल अब  
जेसी-539715पी), 10 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार नरेन्द्र सिंह यादव (सं. 4182103डब्ल्यू अब जेसी-539717ए),  
10 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार बीरेन्द्र सिंह (सं. 4180413एच अब जेसी-539716एक्स),  
18 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 4176831ए अब जेसी-539669एल),  
07 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार शिव करण सिंह (सं. 4174945एम अब जेसी-539681एम),  
07 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार श्याम बीर सिंह (सं. 4178454एन अब जेसी-539682पी),  
07 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार महेश सिंह (सं. 4179604एल अब जेसी-539683के),  
07 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार कालू सिंह (सं. 4178939डब्ल्यू अब जेसी-539678एम),  
07 जनवरी 2005/03 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 03 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार आनन्द सिंह (सं. 4177166पी अब जेसी-539670ए),  
01 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 4179669वाई अब जेसी-539671एच),  
01 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार हरी दत्त (सं. 4176691वाई अब जेसी-539684ए),  
01 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी गई।)

सीएचएम बलवन्त सिंह (सं. 4178106एम अब जेसी-539686एल),  
01 जनवरी 2005/08 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 08 नवम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार लक्ष्मी शंकर यादव (सं. 4175892एल अब जेसी-539663के),  
26 सितम्बर 2004/01 अगस्त 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 अगस्त 2004 से दी गई।)

हवलदार रमेश चन्द यादव (सं. 3178678एक्स अब जेसी-539665पी),  
26 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 सितम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 4180417वाई अब जेसी-539664एम),  
24 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 सितम्बर 2004 से दी गई।)

सीक्यूएमएच इन्दर सिंह (सं. 4177561एच अब जेसी-539672एल),  
29 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार महीमन सिंह कोशियारी (सं. 4180840वाई अब जेसी-  
539674डब्ल्यू), 03 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार होशियार सिंह (सं. 14701249एफ अब जेसी-539718एच),  
30 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार सुरेश लाल साह (सं. 4177919डब्ल्यू अब जेसी-539673एन),  
09 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 4180880ए अब जेसी-539685एच),  
07 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी गई।)

सीएचएम नन्दन सिंह खाती (सं. 4175931वाई अब जेसी-  
539707डब्ल्यू), 05 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार प्रेम चन्द (सं. 4178373एन अब जेसी-539708वाई),  
05 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार कँवर सिंह (सं. 4174183के अब जेसी-539519एफ),  
23 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार लाल सिंह यादव (सं. 4174304ए अब जेसी-539694के),  
01 जनवरी 2005

हवलदार दीवान सिंह (सं. 4176099एच अब जेसी-539675वाई),  
05 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार जोखन यादव (सं. 4175891एच अब जेसी-539695एम),  
05 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी गई।)

सीएचएम राम बाबू (सं. 4175950के अब जेसी-539696पी),  
05 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार राम सिंह (सं. 4177208डब्ल्यू अब जेसी-539679पी),  
03 जनवरी 2005/18 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 18 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 4179652एल अब जेसी-539719एल),  
01 मार्च 2005

नागा रेजीमेन्ट

सीएचएम एल.एच.रंगम (सं. 14702135एच अब जेसी-590158के),  
11 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार कैखो अथिसू (सं. 14701832डब्ल्यू अब जेसी-590157एफ),  
28 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी गई।)

असम रेजीमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार लालचुंगा डारलॉग (सं. 4354722एक्स अब जेसी-  
549032पी), 14 अगस्त 2004/01 मार्च 2004

हवलदार यन बहादुर थापा (सं. 4353722एल अब जेसी-549051ए),  
18 दिसम्बर 2004/25 अगस्त 2004

हवलदार वेलसन (सं. 4354946एक्स अब जेसी-549053एल),  
11 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004

हवलदार एम खामजालम (सं. 4354981ए अब जेसी-549054एन),  
01 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004

हवलदार ललित अले (सं. 4355084डब्ल्यू अब जेसी-549055डब्ल्यू),  
11 दिसम्बर 2004/04 अक्टूबर 2004

हवलदार दिजेन चन्द्र बसुमतारी (सं. 4355365एम अब  
जेसी-549056वाई), 11 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004

हवलदार श्यामल चन्द्र पाल (सं. 4355201डब्ल्यू अब  
जेसी-549057एफ), 11 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004

हवलदार मोहन कुमार श्रेष्ठ (सं. 4352376एन अब जेसी-549058के),  
18 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004

हवलदार धिरेन चन्द्र दास (सं. 4352979के अब जेसी-549059एम),  
12 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004

हवलदार अमर नाथ थापा (सं. 4353233ए अब जेसी-549060एफ),  
18 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004



हवलदार निर्मल चन्द्र बोरो (सं. 4356305के अब जेसी-549062एम),  
17 दिसम्बर 2004/01 मार्च 2004

हवलदार उमा कांता बोरा (सं. 4356157के अब जेसी-549064एक्स),  
26 दिसम्बर 2004/01 सितम्बर 2004

हवलदार पी सी लालदुमा (सं. 4355995एम अब जेसी-549065ए),  
26 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004

हवलदार परेश बरुआ (सं. 4356184एन अब जेसी-549066एच),  
26 दिसम्बर 2004/28 अक्टूबर 2004

हवलदार बाबा सेना सिंघा (सं. 4355007एफ अब जेसी-549067एल),  
22 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004

हवलदार रामबिलास पंडित (सं. 4355146एल अब जेसी-549068ए),  
22 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004

हवलदार कामखोलाम, वीर चक्र (सं. 4354617एफ अब  
जेसी-549069डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004

हवलदार विष्णु देव बर्मन (सं. 4356628एम अब जेसी-549073वाई),  
27 जनवरी 2005/01 सितम्बर 2004

हवलदार रोडखम रोखम (सं. 4356662एम अब जेसी-549074एफ),  
14 जनवरी 2005/01 सितम्बर 2004

हवलदार उत्पल चन्द्र कलिता (सं. 4356681एक्स अब  
जेसी-549075के), 31 जनवरी 2005/08 अक्टूबर 2004

हवलदार हेलुन किपगेन (सं. 4352593के अब जेसी-549076एम),  
01 फरवरी 2005/25 नवम्बर 2004

हवलदार थांग थांग कुकी (सं. 4352453एक्स अब जेसी-549077पी),  
01 फरवरी 2005/25 नवम्बर 2004

हवलदार सितेश्वर बोर्दोलोइ (सं. 4358483एल अब  
जेसी-549078एक्स), 02 फरवरी 2005/25 नवम्बर 2004

हवलदार जगत बहादुर थापा (सं. 4357539ए अब जेसी-549079ए),  
01 फरवरी 2005/25 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार लिपिक के पद में

हवलदार लिपिक पलास बरुआ (सं. 4353467के अब  
जेसी-549072डब्ल्यू), 20 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार धर्मगुरु के पद में

रंगरूट धर्मगुरु (पंडित) विद्या कांत पाण्डेय (सं. 549037एन अब  
जेसी-549037एन), 11 दिसम्बर 2004

कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार करतार सिंह (सं. 7773052एम अब जेसी-818958एल),  
23 जनवरी 2005#

हवलदार सुजीत कुमार मुदी (सं. 7772962एन अब जेसी-818959एन),  
10 जनवरी 2005\*

हवलदार धूरा राम (सं. 7773161वाई अब जेसी-818960एच),  
14 जनवरी 2005\*

हवलदार त्रिलोक चन्द्रा शर्मा (सं. 7771880वाई अब जेसी-818961एल),  
01 जनवरी 2005

हवलदार अर्जुन सिंह के (सं. 7772768वाई अब जेसी-818962एन),  
01 जनवरी 2005

हवलदार जगदीश चन्द्र (सं. 7772985पी अब जेसी-818963डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2005

हवलदार विपुल कुमार पाण्डे (सं. 7771754एम अब जेसी-818964वाई),  
01 जनवरी 2005

हवलदार कृष्णा मुर्ती पी (सं. 7773129के अब जेसी-818965एफ),  
01 जनवरी 2005

हवलदार एकादशी प्रसाद (सं. 7773159एफ अब जेसी-818966के),  
05 जनवरी 2005\*

हवलदार मो. शवकत खान (सं. 7773151पी अब जेसी-818967एम),  
01 जनवरी 2005

हवलदार अशीम मजुमदार (सं. 7772943एच अब जेसी-818968पी),  
01 जनवरी 2005

हवलदार बीरा रतना राजु (सं. 7773107एल अब जेसी-818969एक्स),  
10 जनवरी 2005\*

हवलदार धनेश आर (सं. 7772688एफ अब जेसी-818970एम),  
03 जनवरी 2005\*

हवलदार खीतीश चन्द्र दास (सं. 7772896डब्ल्यू अब जेसी-818971पी),  
11 जनवरी 2005\*

हवलदार भारतेन्दु मिश्रा (सं. 7772563के अब जेसी-818972एक्स),  
07 जनवरी 2005\*

हवलदार अमरेन्द्र मिश्रा (सं. 7773023एक्स अब जेसी-818973ए),  
15 जनवरी 2005\*

हवलदार नर सिंह पाल (सं. 7773149एक्स अब जेसी-818974एच),  
10 जनवरी 2005\*

हवलदार राजु जी (सं. 7773077वाई अब जेसी-818975एल),  
01 जनवरी 2005

हवलदार फिलिप कुट्टी एल (सं. 7773076डब्ल्यू अब  
जेसी-818976एन), 07 जनवरी 2005\*

हवलदार दाउद होरो (सं. 7773253एल अब जेसी-818977डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2005

हवलदार विजय कुमार दुबे (सं. 7773374एम अब जेसी-818978वाई),  
24 जनवरी 2005\*

हवलदार लाकेश्वर दत्ता (सं. 7773386एफ अब जेसी-818979एफ),  
01 जनवरी 2005

हवलदार शैलेन्द्र सिंह (सं. 7773392पी अब जेसी-818980डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005	हवलदार सुनील कुमार चौबे (सं. 7773499के अब जेसी-819000डब्ल्यू), 11 जनवरी 2005 *
हवलदार सकारिया एम के (सं. 7773423के अब जेसी-818981वाई), 01 जनवरी 2005	हवलदार ओम प्रकाश (सं. 7773468के अब जेसी-819001वाई), 07 जनवरी 2005 *
हवलदार गोधन सिंह बिष्ट (सं. 7773418एच अब जेसी-818982एफ), 01 जनवरी 2005	हवलदार राम आधार सिंह (सं. 7773509एच अब जेसी-819002एफ), 15 जनवरी 2005 *
हवलदार बरुण कुमार (सं. 7773429एल अब जेसी-818983के), 04 जनवरी 2005 *	हवलदार मंगु सिंह भाटी (सं. 7773497वाई अब जेसी-819003के), 14 जनवरी 2005 *
हवलदार नन्दा बल्लभ (सं. 7773426एक्स अब जेसी-818984एम), 17 जनवरी 2005 *	हवलदार श्री कुमार पी डी (सं. 7773396एल अब जेसी-819004एम), 08 जनवरी 2005 *
हवलदार गंगा राम (सं. 7773442पी अब जेसी-818985पी), 03 जनवरी 2005 *	हवलदार मोहन बाबु (सं. 7773391एम अब जेसी-819005पी), 07 जनवरी 2005 *
हवलदार टी बसंतो सिंह (सं. 7773447एन अब जेसी-818986एक्स), 10 जनवरी 2005 *	हवलदार सतनाम सिंह (सं. 7773414एच अब जेसी-819006एक्स), 11 जनवरी 2005 *
हवलदार मुरारी सिंह तन्वर (सं. 7773405एच अब जेसी-818987ए), 03 जनवरी 2005 *	हवलदार कंचन सिंह (सं. 7773505एम अब जेसी-819007ए), 11 जनवरी 2005 *
हवलदार राम प्रीत सिंह (सं. 7773428एच अब जेसी-818988एच), 03 जनवरी 2005 *	हवलदार आनंद सिंह धामी (सं. 7773521के अब जेसी-819008एच), 01 जनवरी 2005
हवलदार पुरन मल मैनी (सं. 7773444ए अब जेसी-818989एल), 01 जनवरी 2005	हवलदार बंदी नाथ (सं. 7773514एन अब जेसी-819009एल), 01 फरवरी 2005
हवलदार सामला दासु (सं. 7773450एन अब जेसी-818990ए), 03 जनवरी 2005 *	हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 7773433एन अब जेसी-819010ए), 02 फरवरी 2005\$
हवलदार राम सिंह (सं. 7773691एन अब जेसी-818991एच), 01 जनवरी 2005	हवलदार नरोत्तम सिंह (सं. 7773518के अब जेसी-819011एच), 01 फरवरी 2005
हवलदार अशोक सिंह (सं. 7773453एफ अब जेसी-818992एल), 10 जनवरी 2005 *	हवलदार लक्ष्मण उराँव (सं. 7773524एक्स अब जेसी-819012एल), 01 मार्च 2005
हवलदार तोरष कुमार (सं. 7773455एम अब जेसी-818993एन), 10 जनवरी 2005 *	हवलदार इनागंती नागेश्वर राव (सं. 7773520एफ अब जेसी-819013एन), 17 मार्च 2005@
हवलदार मल्लेशम्पा (सं. 7773088एल अब जेसी-818994डब्ल्यू), 05 जनवरी 2005 *	हवलदार पी राजा कुमार (सं. 7773526एच अब जेसी-819014डब्ल्यू), 01 मार्च 2005
हवलदार जसमाल सिंह (सं. 7773090एच अब जेसी-818995वाई), 01 जनवरी 2005	हवलदार रघुपती सी (सं. 7773557एच अब जेसी-819015वाई), 01 मार्च 2005
हवलदार अमिनुद्दीन खान (सं. 7772931एन अब जेसी-818996एफ), 06 जनवरी 2005 *	हवलदार पद्मनाभन के (सं. 7772865डब्ल्यू अब जेसी-819017के), 06 अप्रैल 2005%
हवलदार विरेन्द्र कुमार ठाकुर (सं. 7773483वाई अब जेसी-818997के), 06 जनवरी 2005 *	हवलदार शिव करण मिश्रा (सं. 7773048के अब जेसी-819018एम), 01 अप्रैल 2005
हवलदार यशवंत सिंह (सं. 7773484एफ अब जेसी-818998एम), 01 जनवरी 2005	हवलदार राम भरोस गौर (सं. 7773696एम अब जेसी-819019पी), 01 अप्रैल 2005
हवलदार बिनीत कुमार (सं. 7773555एक्स अब जेसी-818999पी), 10 जनवरी 2005 *	हवलदार संथ कुमार (सं. 7773564वाई अब जेसी-819020के), 01 अप्रैल 2005

हवलदार प्रणब कुमार बर्मन (सं. 7773566के अब जेसी-819021एम),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार रति राम गुर्जर (सं. 7773531एन अब जेसी-819022पी),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार पवन सिंह (सं. 7773578वाई अब जेसी-819023एक्स),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार परशु राम (सं. 7773596एफ अब जेसी-819024ए),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार राजेश चन्द्र (सं. 7773602के अब जेसी-819025एच),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार रामेश्वर प्रधान (सं. 7773604पी अब जेसी-819026एल),  
01 अप्रैल 2005

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005 से दी जाती है)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार धरम नारायण शुक्ला (सं. 7772033पी अब जेसी-818952के),  
01 जनवरी 2005

हवलदार रमेश लाल जाखर (सं. 7773299एन अब जेसी-818953एम),  
17 जनवरी 2005 \*

हवलदार छेदा लाल (सं. 7773304एन अब जेसी-818954पी),  
15 जनवरी 2005 \*

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 7773317एल अब जेसी-818955एक्स),  
17 जनवरी 2005 \*

हवलदार सुशील कुमार सिंह (सं. 7773325के अब जेसी-818956ए),  
10 जनवरी 2005 \*

हवलदार युवराज सिंह शेखावत (सं. 7773406ए अब जेसी-818957एच), 11 जनवरी 2005 \*

हवलदार अब्दुल मलिक (सं. 7773352एन अब जेसी-819016एफ),  
01 अप्रैल 2005

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैंट्री  
ठोस सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार गुलाम मोहिदीन खान (जेसी-592222पी), 19 नवम्बर 2004  
(सूबेदार मेजर रैंक में 01 अक्टूबर 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार करनाइल सिंह (जेसी-592346के), 04 नवम्बर 2004  
(सूबेदार मेजर रैंक में 01 नवम्बर 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार मुरली लाल शर्मा (जेसी-592243एल), 12 मार्च 2005  
(सूबेदार मेजर रैंक में 01 मार्च 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार रविन्दर सिंह (जेसी-592271वाई), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार शिव लाल (जेसी-592223एक्स), 09 अप्रैल 2005  
(सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-592215वाई), 03 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 मार्च 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार सुरिन्द्र कुमार, एस एम (जेसी-592230एन), 02 मार्च 2005  
(सूबेदार मेजर रैंक में 01 मार्च 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार सुरिन्द्र सिंह (जेसी-592113एच), 07 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 मार्च 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

ठोस सूबेदार लिपिक की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार लिपिक नरेश कुमार (जेसी-592962के), 01 मार्च 2005  
नायब सूबेदार लिपिक युधवीर सिंह (जेसी-592963एम), 01 मार्च 2005  
नायब सूबेदार लिपिक सोमनाथ शर्मा (जेसी-593104एफ), 05 जनवरी 2005

(सूबेदार लिपिक रैंक में 01 जनवरी 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार लिपिक की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार लिपिक प्रताप सिंह कापकोटी (जेसी-592986एन), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार लिपिक जिले सिंह टाडा (जेसी-592987डब्ल्यू), 01 मई 2005

नायब सूबेदार लिपिक मजीद मीर (जेसी-592988वाई), 01 मई 2005

सिख रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-498138डब्ल्यू), 17 जनवरी 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005)

सूबेदार सुखचैन सिंह, शौर्य चक्र (जेसी-498054एच), 01 अप्रैल 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005)

सूबेदार मेधा सिंह (जेसी-224540एफ), 01 अप्रैल 2005	नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-499240एल), 25 मई 2005
सूबेदार संतोख सिंह (जेसी-224545ए), 07 जून 2005	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005)	सूबेदार मेजर के रैंक में
सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में	सूबेदार सतगुर सिंह (जेसी-219708वाई), 21 अप्रैल 2005
सूबेदार क्लर्क सुचा सिंह (जेसी-498078एम), 09 मई 2005	(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005)
सूबेदार के रैंक में	सूबेदार के रैंक में
नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-499021के), 03 मई 2005	नायब सूबेदार दलेर सिंह (जेसी-499236एच), 20 मार्च 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मार्च 2005)	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004)
नायब सूबेदार सवरन सिंह, सेना मेडल (जेसी-499147के), 20 मई 2005	नायब सूबेदार जोगा सिंह (जेसी-499161डब्ल्यू), 12 फरवरी 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005)	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005)
नायब सूबेदार देविन्दर सिंह (जेसी-498962एल), 07 मई 2005	नायब सूबेदार जसबीर सिंह (जेसी-499180एफ), 21 अप्रैल 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005)
नायब सूबेदार सिकन्दर सिंह (जेसी-499039ए), 05 मई 2005	नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-499156एल), 01 मार्च 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005)
नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-499040पी), 05 मई 2005	नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-499148एम), 09 मई 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005)
नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जेसी-499041एक्स), 05 मई 2005	नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-499167एक्स), 02 मई 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005)
नायब सूबेदार अमीर सिंह (जेसी-499081वाई), 05 मई 2005	नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-499222एच), 21 अप्रैल 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005)
नायब सूबेदार गुरजीत सिंह (जेसी-499142एल), 07 जून 2005	नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-499226वाई), 03 मई 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005)
नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-499160एन), 31 मई 2005	नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-499008ए), 01 मई 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2005)
नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-499205एच), 11 मई 2005	नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-499009एच), 01 मई 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)	नायब सूबेदार केवल सिंह (जेसी-499149पी), 09 मई 2005
	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)

नायब सूबेदार सुखचैन सिंह (जेसी-499130डब्ल्यू), 02 मई 2005  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2005)

नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जेसी-499128वाई), 01 मई 2005

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-499139एल), 03 मई 2005  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2005)

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-499190एल), 01 मई 2005

नायब सूबेदार गुरदियाल सिंह (जेसी-499200के), 01 मई 2005

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क राम वशिष्ठ राय (जेसी-498968एम), 01 अप्रैल  
2005

(सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005)

नायब सूबेदार क्लर्क किशोरी लाल (जेसी-498959एल), 03 मई 2005

(सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2005)

नायब सूबेदार क्लर्क यश पाल शर्मा (जेसी-498969पी), 01 मई 2005

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सरवेश सिंह (सं. 2676023वाई अब जेसी-449909डब्ल्यू),  
27 अक्टूबर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2004)

हवलदार पूर्ण सिंह (सं. 2676809एल अब जेसी-449910एल),  
01 अक्टूबर 2004

हवलदार श्रवण दान (सं. 2683056एम अब जेसी-449911एन),  
28 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2004)

हवलदार रामशंकर सिंह (सं. 2676319एक्स अब जेसी-449912डब्ल्यू),  
28 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
08 जनवरी 2005)

हवलदार जाफर अली खान (सं. 2676365एम अब जेसी-449913वाई),  
01 फरवरी 2005

हवलदार अब्दुल (सं. 2675527ए अब जेसी-449914एफ),  
01 फरवरी 2005

हवलदार निसार अहमद (सं. 2676188एक्स अब जेसी-449915के),  
01 फरवरी 2005

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 2677412एल अब जेसी-449916एम),  
01 फरवरी 2005

हवलदार/लिपिक हृदय नारायण सिंह (सं. 2679015एल अब  
जेसी-449917पी), 01 जनवरी 2005

हवलदार/लिपिक हरकेश लाल (सं. 2679019एफ अब जेसी-  
449918एक्स), 01 फरवरी 2005

हवलदार/लिपिक सत प्रकाश (सं. 2679029एल अब  
जेसी-449919ए), 01 फरवरी 2005

हवलदार/लिपिक सतबीर सिंह यादव (सं. 2679046एल अब जेसी-  
449920पी), 01 फरवरी 2005

दिवाकर  
अवर सचिव

-----

सं. 477, दिनांक 8 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं :--

नियमित सेवा विभाग  
रिमाउन्ट व पशुचिकित्सा कोर  
नायब रिसालदार के रैंक में

दफेदार (ड्रेसर) विजयन के (सं. 7237985एन अब जेसी-797310वाई),  
01 नवम्बर 2003

दफेदार (क्लर्क) ए के पाडी (सं. 7238810एक्स अब जेसी-  
797311एफ), 01 नवम्बर 2003

दफेदार (क्लर्क) एच पी सिंह (सं. 7238811ए अब जेसी-797312के),  
01 नवम्बर 2003

दफेदार (फैरियर) बी के पाठक (सं. 7238654वाई अब जेसी-  
797313एम), 01 नवम्बर 2003

दफेदार (राईडर) जे पी सी राजा (सं. 7238632ए अब जेसी-797314पी),  
01 नवम्बर 2003

दफेदार (राईडर) गुलाब सिंह (सं. 7240609एल अब जेसी-  
797315एक्स), 11 अक्टूबर 2003

दफेदार (राईडर) सादो कन्दुलना (सं. 7238932एफ अब जेसी-  
797316ए), 11 अक्टूबर 2003

दफेदार (राईडर) सुनील कुमार सुमन (सं. 7238944डब्ल्यू अब जेसी-  
797317एच), 11 अक्टूबर 2003

दफेदार (राईडर) भीम सैन (सं. 7238951एम अब जेसी-  
797318एल), 11 अक्टूबर 2003

दफेदार (राईडर) महावीर सिंह (सं. 7238974एन अब जेसी-  
797319एन), 11 अक्टूबर 2003

दफेदार (राईडर) रोहतास (सं. 7239146पी अब जेसी-  
797320एच), 01 नवम्बर 2003

दफेदार (राईडर) राम किशन (सं. 7239217एल अब जेसी-797321एल), 01 दिसम्बर 2003

दफेदार (ए डी टी) जी आर राव (सं. 7238753एफ अब जेसी-797322एन), 01 दिसम्बर 2003

आर डी एम (फैरियर) शिव रतन (सं. 7238424ए अब जेसी-797323डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2003

दफेदार (ड्रेसर) भाग्य नारायण कुमार (सं. 7238032एक्स अब जेसी-797324वाई), 01 दिसम्बर 2003

दफेदार (क्लर्क) होरी लाल (सं. 7238837पी अब जेसी-797325एफ), 01 दिसम्बर 2003

दफेदार (ड्रेसर) सूरज भान (सं. 7238153वाई अब जेसी-797326के), 01 जनवरी 2004

दफेदार (ड्रेसर) मोहन राज ई (सं. 7238246एन अब जेसी-797327एन), 01 जनवरी 2004

दफेदार (राईडर) प्रहलाद सिंह (सं. 7239223वाई अब जेसी-797328पी), 01 जनवरी 2004

दफेदार (राईडर) रघुबीर प्रसाद (सं. 7238303एक्स अब जेसी-797329एक्स), 11 अक्टूबर 2003

दफेदार (राईडर) हजारी सिंह (सं. 7239310एम अब जेसी-797330एम), 01 जनवरी 2004

दफेदार (राईडर) सुकुमार राय (सं. 7239321वाई अब जेसी-797331पी), 10 जनवरी 2004

दफेदार (राईडर) दिवाकर पान्डेय (सं. 7239153एल अब जेसी-797332एक्स), 01 दिसम्बर 2003

दफेदार (क्लर्क) मनजीत सिंह (सं. 7238882एफ अब जेसी-797333ए), 01 अप्रैल 2004

दफेदार (क्लर्क) महिपाल (सं. 7238888एच अब जेसी-797334एच), 01 अप्रैल 2004

दफेदार (ड्रेसर) मोहम्मद आजम (सं. 7237874पी अब जेसी-797335एल), 11 अप्रैल 2004

दफेदार (राईडर) राजेन्द्र सिंह (सं. 7239112एफ अब जेसी-797336एन), 11 अप्रैल 2004

दफेदार (राईडर) दिनेश कुमार (सं. 7240759एफ अब जेसी-797337डब्ल्यू), 27 जून 2004

दफेदार (ड्रेसर) जोसेफ लकरा (सं. 7238022एन अब जेसी-797338वाई), 27 जून 2004

दफेदार (क्लर्क) राज कुमार (सं. 7240259के अब जेसी-797339एफ), 01 अगस्त 2004

दफेदार (ए डी टी) आर एन गोच्छायत (सं. 7238644पी अब जेसी-797340डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

दफेदार (राईडर) सुनील कुमार (सं. 7240822एल अब जेसी-797341वाई), 01 अगस्त 2004

दफेदार (क्लर्क) राज कुमार (सं. 7238819एम अब जेसी-797342एफ), 01 सितम्बर 2004

दफेदार (क्लर्क) एस पदमाजन (सं. 7238821के अब जेसी-797343के), 01 सितम्बर 2004

दफेदार (क्लर्क) मुहम्मद अली (सं. 7238896एफ अब जेसी-797344एम), 01 अक्टूबर 2004

दफेदार (ड्रेसर) श्री राम (सं. 7238305पी अब जेसी-797345पी), 01 अक्टूबर 2004

दफेदार (ड्रेसर) रविन्दर नाथ राय (सं. 7238357एल अब जेसी-797346एक्स), 01 अक्टूबर 2004

दफेदार (ड्रेसर) ब्रजेश शर्मा (सं. 7238347एफ अब जेसी-797347ए), 01 अक्टूबर 2004

दफेदार (ड्रेसर) उपेन्द्र नाथ सिंह (सं. 7238360एल अब जेसी-797348एच), 01 अक्टूबर 2004

आर डी एम (फैरियर) चन्दर दीप सिंह (सं. 7238612एम अब जेसी-797349एल), 01 अक्टूबर 2004

आर डी एम (फैरियर) राम प्रसाद (सं. 7238709एक्स अब जेसी-797350ए), 01 अक्टूबर 2004

दफेदार (राईडर) बिनोद मुर्मू (सं. 7238633एच अब जेसी-797351एच), 01 नवम्बर 2004

दफेदार (ड्रेसर) चन्द्र भूषण चौबे (सं. 7238359डब्ल्यू अब जेसी-797352एल), 01 नवम्बर 2004

दफेदार (ड्रेसर) जनक राज (सं. 7238618एन अब जेसी-797353एन), 01 नवम्बर 2004

दफेदार (राईडर) गणेश प्रसाद यादव (सं. 7238943एन अब जेसी-797354डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004

दफेदार (ड्रेसर) राम अवध राम (सं. 7238630पी अब जेसी-797355वाई), 01 दिसम्बर 2004

एम एन सिंह  
अवर सचिव

सं. 478, दिनांक 7 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति, खुश होकर निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कवचित कोर

स्थाई रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार मिरा बक्श सिंह सोमवंशी (जेसी-236656के), 05 दिसम्बर 2003\*

\* (रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

रिसालदार रणधीर पाल सिंह (जेसी-236318एम), 01 फरवरी 2004  
 रिसालदार जगत सिंह (जेसी-237364एन), 01 मार्च 2004  
 रिसालदार रूल्डा सिंह (जेसी-236551ए), 20 मार्च 2004\*  
 \*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)  
 रिसालदार माने विजया भास्कर राव (जेसी-237714पी), 01 अप्रैल  
 2004  
 रिसालदार सरबजोत सिंह (जेसी-237290के), 01 अगस्त 2004  
 रिसालदार ओमपाल सिंह (जेसी-236998एक्स), 02 अगस्त 2004\*  
 \*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)  
 रिसालदार देवेन्द्रा सिंह (जेसी-236070एन), 08 अगस्त 2004\*  
 \*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)  
 रिसालदार रामेश्वर लाल मुन्ड (जेसी-238014एम), 01 नवम्बर 2004  
 रिसालदार पुरखा राम (जेसी-237619वाई), 24 दिसम्बर 2004\*  
 \*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)  
 रिसालदार चमन सिंह (जेसी-237061वाई), 01 दिसम्बर 2004  
 रिसालदार रमेश चन्द राणा (जेसी-237706डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2004\*  
 \*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)  
 रिसालदार रतन सिंह राजपूत (जेसी-237627एफ), 07 फरवरी 2005\*  
 \*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)  
 रिसालदार फकीर चन्द (जेसी-238031एन), 01 फरवरी 2005  
 रिसालदार/क्लर्क (जीडी) सकीन्दर सिंह (जेसी-236792ए), 04 मई  
 2005\*  
 \*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

जोस थॉमस  
 अवर सचिव

सं. 479, दिनांक 13 सितम्बर 2005--थल सेना अनुदेश 37/78 व थल  
 सेना अनुदेश 4/96 द्वारा उसमें जारी संशोधन के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष  
 निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
 (स्थायी कमीशन)

कर्नल से सर्जन कमोडोर के पद पर

डी आर-10311एफ (79066डब्ल्यू), राकेश मित्तल, 30 अप्रैल 2005  
 परन्तु वैकल्पिक वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है, जो कि वेतन और  
 भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी।

थल सेना अनुदेश 37/78 व थल सेना अनुदेश 11/02 द्वारा उसमें जारी  
 संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
 (स्थायी कमीशन)

मेजर से लैफ्टि. कर्नल के पद पर

डी आर-10444एक्स सुदीप राय, 28 मई 2005

डी आर-10428ए इ एम गोडा, 29 मई 2005

कैप्टन से मेजर के पद पर

डी आर-10562एल सौरभ भाटिया, 18 मार्च 2005

डी आर-10517वाई सी एस चट्टोपाध्याय, 19 अप्रैल 2005

डी आर-10568एम मनब कोसाला, 27 अप्रैल 2005

डी आर-10564डब्ल्यू निशान्त, 06 मई 2005

लैफ्टि. से कैप्टन के पद पर

डी आर-10578डब्ल्यू रंगाराजन एच, 25 मार्च 2005

थल सेना अनुदेश 15/79 व थल सेना अनुदेश 10/02 द्वारा उसमें जारी  
 संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
 (अल्पकालीन कमीशन)

लैफ्टि. से कैप्टन के पद पर

डी एस-12133एच मनीष मित्तल, 30 मई 2005

डी एस-12134एल मनोज कुमार, 06 जून 2005

डी एस-12135एन गोरव गर्ग, 09 जून 2005

डी एस-12136डब्ल्यू भानू शर्मा, 11 जून 2005

डी एस-12137वाई नवीन कौल, 23 जून 2005

डी एस-12138एफ विराजली सांवत, 24 जून 2005

डी एस-12148एल दीपू जेक्कब, 16 अप्रैल 2005

डी एस-12128एक्स जॉयदीप बसाक, 18 अप्रैल 2005

डी एस-12129ए चन्द्र प्रकाश, 21 अप्रैल 2005

डी एस-12130पी रवी शंकर, 22 अप्रैल 2005

डी एस-12131एक्स अमित जैन, 23 अप्रैल 2005

डी एस-12132ए तरुण डाबरा, 30 अप्रैल 2005

परमजीत सिंह  
 मेजर जनरल  
 ए डी जी डी एस

सं. 480, दिनांक 12 सितम्बर 2005—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं :—

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
कप्तान से मेजर

आई सी-56848, रंजीत गोस्वामी, आर्टी  
आई सी-42675, रवि राज सिंह, ए सी  
आई सी-46870, संदीपन दास, आर्टी  
आई सी-54967, राजेश आर एन, आर्टी  
आई सी-52834, विनोद कुमार शाही, ए डी आर्टी  
आई सी-54955, राजेश कुमार, ए डी आर्टी

--16 दिसम्बर 2004

आर सी-00826, शिवाजी ठुक्कर, इन्फैन्ट्री  
आर सी-00957, जी राजारामन, सिग्नल्स  
आर सी-00984, रवि शंकर पाण्डे, इन्फैन्ट्री  
आर सी-01002, हरिदासन के, ए सी  
आर सी-01094, तरसेन चन्द राणा, ईन्ट

--16 दिसम्बर 2004

एस एल-4262, वैकट नारायण, एस एल क्यू एम  
एस एल-4305, विद्याधर सिंह मील, एस एल बी आर  
एस एल-4406, धर्मपाल सिंह, एस एल आर ओ  
एस एल-4690, एम आई एस गिल, एस एल ए पी टी सी

--16 दिसम्बर 2004

एस एल-4617, पी राजांगम, एस एल आर ओ

--24 अप्रैल 2005

एस एल-4085, पूरन सिंह रकबाल, एस एल, आर ओ

--16 दिसम्बर 2004

चन्द्र प्रकाश  
उप निदेशक  
एम एस 8सी

-----

सं. 481, दिनांक 13 सितम्बर 2005—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
मेजर जनरल के मूल रैंक में

ब्रिगे. पुताम्मादम राजा गंगाधरन वी एस एम (आई सी-19873), एम  
एल आई, 03 जनवरी 2003

ब्रिगे. सिवसंकर पिल्लई श्रीकुमार (आई सी-19891), सिग्नल, 01 सितम्बर  
2003 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2003  
से दी जाएगी।

ब्रिगे. दविन्दर कुमार दत्ता (आई सी-19946), ए एस सी, 01 फरवरी  
2003

ब्रिगे. सुरिन्दर वीर सिंह बैन्स (आई सी-23034), इंजीनियर्स, 03 मार्च  
2003

राष्ट्रपति, सहर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग के इंजीनियर्स कोर के निम्नलिखित  
अधिकारियों का ब्रिगेडियर के मूल रैंक में पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

कर्नल हरी सिंह (आई सी-35039), इंजीनियर्स, 26 दिसम्बर 2003

कर्नल पी एस समुद्रा (आई सी-34322), इंजीनियर्स, 31 दिसम्बर 2003

एम मारियप्पन  
संयुक्त निदेशक/एम एस (एक्स)

सं. 482, दिनांक 12 सितम्बर 2005—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं :—

नियमित सेना  
स्थायी आयोग  
ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आई सी सं.	नाम	आर्म	सब्सटैटिव तिथि
1	2	3	4
35813	पी एच पी थापलियाल	इंजीनियर्स	16 दिसम्बर 2004
39833ए	एस एस धनखर	ई एम ई,	13 जून 2005
36736एक्स	सुरेन्द्र सिंह	ए ओ सी	16 दिसम्बर 2004
37067डब्ल्यू	बलबीर सिंह	ए सी	16 दिसम्बर 2004
37155एम	पी एम मीना	इंजीनियर्स	16 दिसम्बर 2004
38123डब्ल्यू	राजागोपालन सुरेश	इन्फैन्ट्री	09 जून 2005
38132एक्स	नरेश चन्द्र रावाल	आर्टी	09 जून 2005
27741	एन पी कुमार	सिग्नल	16 दिसम्बर 2004
30178	सी के एस थापा	इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2004
31456	डी एस राघवन	आर्टी	16 दिसम्बर 2004



1	2	3	4
35573	जे एस गिल	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
37072	एम जे डिसूजा	इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2004
34744एक्स	अविनाश अम्बादास पुस्तके	इन्जीनियर्स	16 दिसम्बर 2004
24681एम	एस के मैनी	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
30948एम	राम मेहर सिंह	एमएफ	16 दिसम्बर 2004
33857एन	एन के शर्मा	इन्जीनियर्स	16 दिसम्बर 2004
35439एक्स	पी के प्रधान	ईएमई	16 दिसम्बर 2004
36132वाई	पी मेहता	इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2004

अजय गोयल  
उप निदेशक  
एम एस-8ए

सं. 483, दिनांक 9 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी की सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति देते हैं :--

प्रादेशिक सेना  
प्रादेशिक कमीशन  
कैप्टन बनाया जाता है

लेफ्टि करनी सिंह देशपाण्डे (टीए-42328), इन्फैन्ट्री, 03 फरवरी 2004

बी. के. मल्होत्रा  
अवर सचिव

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 484, दिनांक 12 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं--डॉ. के. रामचन्द्र, वैज्ञानिक जी, निदेशक, जी.टी.आर.ई., बेंगलूर को वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से उसी पद पर रु. 22,400-525-24,500 के वेतनमान पर।

आर.सी.एम.ए (एन), ओझार टाउनशिप के श्री पी.आर. बघेल, वैज्ञानिक 'ई' को अगले ग्रेड वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में उसी प्रयोगशाला में 01 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से रु. 16,400-450-20,000 के वेतनमान पर।

ए. डी. आर. डी. ई., आगरा कैण्ट के श्री कमल किशोर थापर, वैज्ञानिक 'एफ' को अगले ग्रेड वैज्ञानिक 'जी' के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास

सेवा में उसी प्रयोगशाला में 01 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से रु. 18,400-500-22,400 के वेतनमान पर।

आर.सी.एम.ए (ए.ए.), पुणे के श्री उदय ननाल, वैज्ञानिक 'सी' को अगले ग्रेड वैज्ञानिक 'डी' के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में उसी प्रयोगशाला में 01 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से रु. 12,000-375-16,500 के वेतनमान पर।

डील, देहरादून के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2005 पूर्वाह्न से।

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
श्री/श्रीमती			
के एन राव	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
शिव ओम राजू	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
के एस बिष्ट	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
एम सी खुल्बे	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
विरेन्द्र सिंह राठी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
एन के बन्सल	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
एस एस बिष्ट	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
डॉ. संगीता खरे	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
शंकर महतो	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
जी सी पाण्डे	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
विपिन कुमार कौशिक	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
मनोज कुमार ढाका	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
पिनाकी सेन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
राजवीर सिंह	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
उमेश बहुगुणा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
महेश एम	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
गोपाल पटेल	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
यशवीर सिंह नेगी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
पंकज कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-

सी.वी. आर. डी. ई, चेन्नई के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2005 पूर्वाह्न से।

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
टी एस बालासुब्रह्मण्यन	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
एस सत्यमूर्ति	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	-वही-
के लोगनाथन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
बी आई रवि	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
वाई स्वामिनाथन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
एम शिवानन्दम	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
जे रूप चंद	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
यू. सोलोमन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
के आर जेम्स विक्टर राज	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
पी विश्वनाथन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
एम ए मुत्थुमाधिकम	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
एन सीतारामन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
पी डी जयराम	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
एस भुरलीधर	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
के. पार्थिवन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
एम सेल्वम	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
एन त्यागराजन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
एस श्रीनिवास राव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
बी बालामुरुगन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
ए मणिवण्णन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
एम आर राधाकृष्णन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
एन शिवप्रकाशम	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
बी पद्मनाभन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
ए देवरपिरान	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
पी अकिताण्डेश्वरी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-

एस.एस.पी.एल, दिल्ली के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाए गए अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2005 से।

नाम	पदनाम	पदोन्नति	वेतनमान
1	2	3	4
डा. हरी	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
डा. आर भुरलीधरन	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	-वही-

1	2	3	4
आदर्श कुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
अनिल कुमार गुप्ता	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
बी एस मैथ्यू	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
सी आर जलवानी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
जैड ए डी खान	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
मनमोहन सिंह	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
डा. चन्द्रा प्रकाश	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
मनोज उमेश शर्मा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
डा. वी के गंगोत्रा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
बी एस शर्मा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
अनुपमा सिंह	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
मीना मिश्रा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
सी पी कुलकर्णी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
डा. नितेन्द्र कुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
एस पी चौधरी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्रीमती तंजीम क़ामी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
ए थियोडोर निमल	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-

जे. एस. मेहरा  
उप सहायक

राष्ट्रपति सहर्ष डी.ई.बी.ई.एल., बेंगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों की उनके वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में उसी प्रयोगशाला में 01 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से उनके सामने दर्शाए गए वेतनमान पर पदोन्नति करते हैं :-

नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नति हुई है	वेतनमान
1	2	3	4
डा. वी सी पडाकी	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
डी. पी पी कृष्णपुर	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
जी एस एन मूर्थी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
डा. एन एस कुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
एस एन विजयलक्ष्मी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
आर रामजी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

राष्ट्रपति सहर्ष एल.आर.डी.ई., बेंगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों की उनके वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में उसी स्थापना में 01 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से उनके सामने दर्शाए गए वेतनमान पर पदोन्नति करते हैं :—

नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नति हुई है	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
सी आर रघुनाथ	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
जी एस एन राजू	-वही-	-वही-	-वही-
पी के बनर्जी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
टी एस प्रनेशा मूर्थी	-वही-	-वही-	-वही-
जोसफ मैथ्यू	-वही-	-वही-	-वही-
के एस एस प्रकाश	-वही-	-वही-	-वही-
टी वी प्रकाश राव	-वही-	-वही-	-वही-
जे वेंकटरामन	-वही-	-वही-	-वही-
पी राधाकृष्णा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
मारग्रेट ए नलिनी	-वही-	-वही-	-वही-
डा. एम नागराजन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
जे सुन्दरा मूर्थी	-वही-	-वही-	-वही-
वी ए आबिद हुसैन	-वही-	-वही-	-वही-
एन वी एम प्रकाश	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
वी राजागोपालन	-वही-	-वही-	-वही-
एच के एल जोइस श्रीनाथ	-वही-	-वही-	-वही-
डी राजागोपाल	-वही-	-वही-	-वही-
एन रामाकृष्णा पिल्लै	-वही-	-वही-	-वही-
हरीश चन्द्रा	-वही-	-वही-	-वही-
एम अरोकिया स्वामी	-वही-	-वही-	-वही-
एस पन्हानीबेल	-वही-	-वही-	-वही-
के एम वीरभद्रा	-वही-	-वही-	-वही-
अजय कुमार पाठक	-वही-	-वही-	-वही-

राष्ट्रपति सहर्ष जी.टी.आर.ई., बेंगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों की उनके वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में उसी स्थापना में 01 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से उनके सामने दर्शाए गए वेतनमान पर पदोन्नति करते हैं :—

नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नति हुई है	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4
जी देवनन्दा	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
डी. वेंकटरामन शंकर	-वही-	-वही-	-वही-

1	2	3	4
एच आर नटराजा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
सी रामानाथा	-वही-	-वही-	-वही-
पी एन श्रीनिवासा मूर्थी	-वही-	-वही-	-वही-
डी नरसारेड्डी	-वही-	-वही-	-वही-
आर के हेमचन्द्र	-वही-	-वही-	-वही-
एम शम्भूलिंगाह	-वही-	-वही-	-वही-
डा. ए अरुणा	-वही-	-वही-	-वही-
एन मुथूवीरप्पन	-वही-	-वही-	-वही-
यू चन्द्राशेखर	-वही-	-वही-	-वही-
पी बालासुब्रामनियन	-वही-	-वही-	-वही-
टी एन सुरेश	-वही-	-वही-	-वही-
श्री देवव्रत राव	-वही-	-वही-	-वही-
डा. सुरेन्द्र कुमार पटेल	-वही-	-वही-	-वही-
वी थंगावेलू	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
अनिल कुमार विद्यारथी	-वही-	-वही-	-वही-
प्रवीन कुमार कामानत	-वही-	-वही-	-वही-
जी एस रामाकृष्णा	-वही-	-वही-	रु. 14,300-400-18,300
एस ई नारायणराजू	-वही-	-वही-	-वही-
के बानुमथी	-वही-	-वही-	-वही-
रंजन कुमार मिश्रा	-वही-	-वही-	-वही-
टी एन सतीश	-वही-	-वही-	-वही-
बी गीतांजली	-वही-	-वही-	-वही-
एम वेंकटेश्वरालू	-वही-	-वही-	-वही-
एस वी रमनमूर्थी	-वही-	-वही-	-वही-
आर सत्यानारायनन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
सी अय्यप्पन	-वही-	-वही-	-वही-
टी हेमचन्द्र	-वही-	-वही-	-वही-
बी के झा	-वही-	-वही-	-वही-
संजय माटा	-वही-	-वही-	-वही-

राष्ट्रपति सहर्ष एम.टी.आर.डी.सी., बेंगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाए गए अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2005 से।

नाम	पदनाम	पदोन्नति	वेतनमान
1	2	3	4
सुशील रैना	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
मृत्युंजय संत्रा	-वही-	-वही-	-वही-
एस सुब्रामनियन	-वही-	-वही-	-वही-
पी सिधार्थन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
मेदुरी रवी	-वही-	-वही-	-वही-

जे के खडवाल  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

(थल सेना विभाग)

शुद्धि पत्र

सं. 485, दिनांक 13 सितम्बर 2005--सं. 954/90 दिनांक 06 अप्रैल 1990 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक "लेफ्टि. के पद पर (परख पर)" डी एस-11744 एल (मिसेज) मिनाक्षी शर्मा, बी डी एस नागपुर- 15-1-90 के सामने :--

पढ़ा जाए : (वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15-07-89 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है)।

भारत के राजपत्र में सं. 413/95, 24 जून 1995 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक "लेफ्टि. से कैप्टन के पद पर" में डी एस-11744एल (मिसेज) मिनाक्षी शर्मा के नाम के सामने :--

के स्थान पर : 15-01-1992

पढ़ा जाए : 15-07-1991

भारत के राजपत्र में प्रकाशित 22 फरवरी 1997 को रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उपशीर्षक 'कैप्टन से मेजर के पद पर' में जहां तक इसका सम्बन्ध मिनाक्षी शर्मा (डी आर-10432एच) से है उनके नाम के सामने :--

के स्थान पर : 15-07-1996

पढ़ा जाए : 15-01-1996

भारत के राजपत्र में 29 जनवरी 2005 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उपशीर्षक 'मेजर से लेफ्टि. कर्नल के पद पर' डी आर-10432एच (मिसेज) मिनाक्षी शर्मा के नाम के सामने :--

के स्थान पर : 15-07-2004

पढ़ा जाए : 15-01-2004

परमजीत सिंह  
मेजर जनरल  
अपर डी जी डी एस

MINISTRY OF DEFENCE  
(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 8th October 2005

No. 469, dated 7th September 2005.—The President is pleased to appoint Shri Amit Cowshish, IDAS (1977) as Additional Financial Adviser & JS in the Ministry of Defence (Finance Division) with effect from the forenoon of 2nd September, 2005 to 1st September, 2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

M. C. LUTHER  
Dy. Financial Adviser (E)

ARMY BRANCH

No. 470, dated 9th September 2005.—The President is pleased to make the following appointment:—

TERRITORIAL ARMY  
TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

Lt. Puneet Dadeceh (TA-42574), Infantry—30 Apr 2003 (A/N)

Lt. Praveen Agnihotri (TA-42588), Infantry—22 Aug 2003 (F/N)

Ex Sub Lt. Shantanu Narayan Shimpi (TA-42590), Infantry—31 Dec 2003 (F/N)

Lt. Pannicker Arvind Krishna (TA-42592), Infantry—16 Jan 2004 (A/N)

Lt. Karan Mohan Kadam (TA-42593), Infantry—17 Jan 2004 (F/N)

Lt. Akshay Pareek (TA-42594), Infantry—02 Feb 2004 (F/N)

Lt. Gagan Mishra (TA-42596), Infantry—06 Feb 2004 (F/N)

Lt. Deepak Katoch (TA-42597), Infantry—09 Feb 2004 (F/N)

Lt. Supern Singh Shekhawat (TA-42598), Infantry—09 Feb 2004 (F/N)

Lt. H Amarbir Singh (TA-42599), Infantry—09 Feb 2004 (F/N)

Lt. Thakore Manojee Matimohan (TA-42600), Infantry—09 Feb 2004 (F/N)

Lt. Shiraz Ahmed (TA-42601), Infantry—09 Feb 2004 (A/N)

Lt. Shyam Bihari Singh (TA-42602), Infantry—13 Feb 2004 (F/N)

Lt. Yogendra Gaur (TA-42603), Infantry—27 Feb 2004 (A/N)

Lt. Gitesh Raja (TA-42604), Infantry—17 Mar 2004 (F/N)

Lt. Anil Balhera (TA-42606), Infantry—29 Jun 2004 (F/N)

Lt. Rohit Rajendra Gadkary (TA-42608), Infantry—07 Feb 2004 (F/N)

Lt. Rajat Datta (TA-42609), Infantry—16 Jul 2004 (F/N)

Lt. Kunal Thapa (TA-42610), Infantry—05 Aug 2004 (F/N)

Lt. Satender Kinha (TA-42611), Infantry—21 Jun 2004 (F/N)

Lt. Anup Kumar Ojha (TA-42612), Infantry—08 Aug 2004 (F/N)

Lt. Sushil Kumar Ghule (TA-42613), Infantry—16 Aug 2004 (F/N)

Lt. Sandeep Upadhyay (TA-42614), Infantry—20 Aug 2004 (F/N)

Lt. Mehtab Singh Sandhu (TA-42615), Infantry—04 Aug 2004 (F/N)

Lt. Sema Mughavi Yephtho (TA-42616), Infantry—20 Aug 2004 (A/N)

Lt. P Sridhar Chakravarty (TA-42617), Infantry—24 Aug 2004 (A/N)

Lt. Pawan Rauthan (TA-42618), Infantry—24 Aug 2004 (F/N)

Lt. Ramniwash Bijnorla (TA-42619), Infantry—25 Aug 2004 (F/N)

Lt. Praduman Singh Rathore (TA-42620), Infantry—01 Sep 2004 (F/N)

Lt. Gaur Vaibhav Chandrasekhar (TA-42621), Infantry—02 Sep 2004 (A/N)

Lt. Dubey Durgesh Radheshyam (TA-42622), Infantry—04 Sep 2004 (F/N)

Lt. Siddique Saleemudeen (TA-42623), Infantry—15 Sep 2004 (F/N)

Lt. Sandeep Kakkar (TA-42624), Infantry—12 Oct 2004 (F/N)

Lt. Rakesh Kumar Verma (TA-42625), Infantry—16 Oct 2004 (F/N)

Lt. Rajpal Singh (TA-42626), Infantry—01 Nov 2004 (F/N)

Lt. Sandeep Singh (TA-42627), Infantry—01 Nov 2004 (F/N)

Lt. Dheeraj Kumar Singh (TA-42628), Infantry—13 Sep 2004 (F/N)

Lt. Jaideep Shekhawat (TA-42629), Infantry—31 Oct 2004 (F/N)

Lt. Navjot Singh Thind (TA-42630), Infantry—01 Nov 2004 (A/N)

Lt. Mervin Andrew Bird Sturgeon Rynjah (TA-42631), Infantry—18 Nov 2004 (F/N)

Lt. Christy Clement (TA-42632), Infantry—27 Nov 2004 (F/N)

Lt. Vikram Singh Yadav (TA-42633), Infantry—13 Dec 2004 (F/N)

Lt. Virendra Singh Chandel (TA-42634), Infantry—07 Dec 2004 (F/N)

Lt. Shaminder Singh Jasrotia (TA-42635), Infantry—07 Oct 2004 (A/N)

✓ Lt. Ravinder Kumar Yadav (TA-42636), Infantry—24 Oct 2004 (F/N)

Lt. Kewal Krishan (TA-42637), Infantry—03 Jan 2005 (F/N)

B. K. MALHOTRA  
Under Secy.

No. 471, dated 13th September 2005.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 15/79 as amended 10/02.

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt (On Probation)

DS-12139K Rathod Harshad Narayan, 02 Apr 2005

DS-12140Y Anup Gopi, 04 Apr 2005

DS-12141F Kamal Verma, 07 Apr 2005

DS-12142K T Shamananda Singh, 09 Apr 2005

DS-12143M Nitin Kaushal, 14 Apr 2005

DS-12144P K Senthil Kumar, 14 Apr 2005

DS-12145X Vikas Deep, 14 Apr 2005

DS-12147H Shadab Ahmad, 15 Apr 2005

DS-12148L Deepu Jacob, 16 Apr 2005

DS-12149 N Ashok A Rathod, 19 Apr 2005

DS-12151L Ravi Bhatt, 19 Apr 2005

DS-12152N Diptiman Shukla, 20 Apr 2005

DS-12153W Krishan Kumar, 21 Apr 2005

DS-12146A Rahul Pratap Singh, 15 Apr 2005

DS-12150H Rohit Bahri, 19 Apr 2005

DS-12155F (Ms) Sunita, 19 May 2005

DS-12156K Pradeep SS, 20 May 2005

DS-12157M (Ms) Ekta Badani, 25 May 2005

DS-12158 P M Reenesh, 25 May 2005

DS-12159X Harshavardhana B, 25 May 2005

DS-12160M Kumara Sundaram R, 26 May 2005

DS-12161P Vivek Pradhan, 28 May 2005

DS-12162X Manish Kumar, 30 May 2005

DS-12163A Narender Singh, 01 Jun 2005

DS-12164H PVN Chaitanya P, 04 Jun 2005

DS-12166N N Mohan Rangan, 09 Jun 2005

DS-12167W Raj Kumar S, 11 Jun 2005

DS-12168Y Girish S, 14 Jun 2005

The President is pleased to make the following appointments under AI 15/79 as amended:—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### (SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lieut (On Probation)

DS-12070L Peter Devodoss, AD Corps (BDS Bangalore)—17 Jun 2002

with seniority for pay and promotion from 17.12.2001 (includes 06 months ante date for paid job of Lecturer at the Thai Moogambigai Dental College & Hospital, Chennai, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 15.03.2003 in so far as it pertain to the officer is hereby cancelled.

PARAMJIT SINGH

Maj Gen.

Addl. DGDS

#### INTEGRATED HEADQUARTERS (NAVY)

No. 472, dated 7th September 2005.—The President is pleased to appoint the following Assistants as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the AHFQ Civil Service w.e.f. 29.07.2005 in the Pay Scale of Rs. 6500-200-10,500/- on their being successful in LDCE-2003 conducted by UPSC.

(a) Shri Himanshu Dwivedi

(b) Shri Rajesh Narang

(c) Smt. Namita Malik

SHANKAR SINGH

Dy. Chief Administration Officer (A)

No. 473, dated 13th September 2005.—The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned Officer in the rank of Fg Offr w.e.f. the date mentioned against his name under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/22258/1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82.

## INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)  
BRANCH

Fg Offr Manish Balani (27875) wef 05 Jan 2004.

The President is pleased to terminate the Short Service Commission (on probation) granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

## INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)  
BRANCH

Fg Offr Nitin Thomas Sam (27574), Gopalakrishna Venu Kurup (27832), Basil Oscar Rebeiro (27833), Jahagirdar Nilesh Govind (27834), Anil Kumar (27835), Naredla Viswhanath (27836), Suresh Kumar (27837), Kammili Sree Phani Kumar (27838), Hajare Manoj Ramrao (27839), Nagendra DA (27840), Yudhvir Singh (27841), Vishal Goyal (27842), Rajarathinam Karthik (27843), Hivare Sachin Bhimrao (27844), Natarajan Rajagopalan (27845), Sameer Sudhir Deshmukh (27846), Ramachandran Pradeep (27847), Shishir Chaturvedi (27926), Anand Dutt (27932), Golla Joshva (27933), Fg Offr Sunny Vyas (27934) wef 03 Jan 2005.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)  
BRANCH

Fg Offr Sudeesh Narayanan (27611), Y Anantha Narayanan (27614), Suvadip Maity (27622), Perusomala Raghavacharya (27629), D'Mello Francis Mathew (27894), Upadrasta Vidyasagar Laxmayya (27895), R Yashavanth Raj (27896), Arun Singh (27897), M Dhanasekar (27898), Mukul Kaistha (27899), Abdul Rehman (27900), Srikant PA (27901), Manish Dahiya (27902), Sachin Sadasivan (27903), Ashish Tiwari (27904), Tejinder Singh Baath (27905), T Arunprasad (27906), Arjun Jadhav (27907), Vits Susan Vincent (27908), Rajneesh Thota (27909), Diptiman Mukhi Bhattacharya (27910), Gaurav Ramkrishna Karandikar (27911), Dharm Vir (27912), Chudasama Narendrasinh Juvansinh (27913), Saurabh Kalra (27914), Yogesh Parihar (27915), Tarun Shakti Dahiya (27916), Sachin Tom John (27917), Abhinay Shukla (27918), Prithviraj Singh Chouhan (27919), Tushar Joshi (27920), Vineet Garg (27921), Satish Kumar Pandari (27922), Puran Deo Ojha (27923), Vishwadeep Das (27924), Gireesh Krishnan (27925), Suradeep Nath (27928), Kasinathan Ramachandran (27929), Kallol Bose (27930), Karthik Subramaniam (27931) wef 03 Jan 2005.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/22258/1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82.

## INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)  
BRANCH

Fg Offr Preetham Shetty (27824), Rajan Vishwakarma (27825), Arpan Mishra (27826), Mahendran Natarajan (27827), Vinod Sanjeev (27828), Nikhil M (27829), Harshavardhan S Kotur (27830), Saurabh Mohan (27831) wef 03 Jan 2005.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)  
BRANCH

Fg Offr Abhinandan Das (27848), Naveen Kumar Jayaram (27849), Sandeep Debnath (27850), Sampath Krishnan Muthuvel (27851), Vikram Chhibber (27852), Pankaj Kumar Padhy (27853), Tushar Rastogi (27854), Bannehiang Dkhar Giri (27855), Abhishek Singh (27856), Manish Kumar Verma (27857), Nimit Kaura (27858), Anupam Kapoor (27859), Nayan Kumar Sen (27860), Ravi Kumar Bajia (27862), Ravishankar Patil (27863), Abhishek Tyagi (27864), Chintan Khanna (27865), Nitin Bakhshi (27866), Prasad Kalyat Thazathu Veetil (27867), Baljeet Singh Anand (27868), Vaidyanathan Magesh (27869), Nagaraj Kattaian (27870), Vihang Pramod Nadkarni (27871), Kishore Raju Gadhiraju (27872), Sudheer Parameshwaran (27873), Gaurav Sharma (27874), Manish Balani (27875), Girish Chandra Mathpal (27877), Mehul Gupta (27878), Pankaj Rajain (27879), Manish Rastogi (27880), Abraham Jacob (27881), M Chandru (27882), Amardeep Singh (27883), Rohit Anand (27884), Radhakrishnan Ravindranath Senthil Kumar (27885), Ashish Karan (27886), Manu Gopal (27887), Sumit Sharma (27888), Deepak Krishnananda Prabhu (27889), Gaurav Dwivedi (27890), Nishant Verma (27891), Anirban Maitra (27892), Ganesh Kannan Kannan (27893) wef 03 Jan 2005.

SSRIVASTAV  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

## NATIONAL CADET CORPS

No. 474, dated 12th September 2005.—The under mentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective University as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University.

*Name of the Vice Chancellor, Name of the University and date of appointment as Vice Chancellor*

Prof (Dr.) V Balamohandas, Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar, AP—06 May 2005

Prof (Dr.) S Jayarama Reddy, Ph.D., Sri Venkateswara University, Tirupati—19 Dec 2004

Dr. Iresh Sadashiv Swami, Solapur University, Solapur—24 Jul 2004

Dr. P. Maruthamuthu, M. Sc., Ph. D, F.I.C.C., F.I.C.S.,  
M.N.A.Sc., F.T.N.A.Sc., Vice Chancellor, Madurai Kamaraj  
University, Palkalaingar, Madurai—07 Mar 2005

Prof Arun Kumar, Vice Chancellor, Deendayal Upadhyay  
Gorakhpur University, Gorakhpur—19 Nov 2004

JATINDER SINGH  
Brig  
Dy. Dir. Gen. (MS)

(ARMY BRANCH)

No. 475, dated 13th September 2005.—The President is  
pleased to confirm the undermentioned officers in the Short  
Service Commission on successful completion of  
probationary period on one year in terms of AI 15/79 as  
amended.

REGULAR ARMY

(ARMY DENTAL CORPS)

SHORT SERVICE COMMISSION

CONFIRMATION

DS-12114X Capt Parvinder Sharma, 19 Feb 2004

DS-12118N Capt Pramod Udagani, 03 Mar 2004

DS-12119W Capt Alok Kumar, 05 Mar 2004

DS-12121N Capt V Paul Deepac, 05 Mar 2004

PARAMJIT SINGH  
Maj Gen  
Addl. DGDS

No. 476, dated 7th September 2005.—The President is  
pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Kuldeep Singh Rana (3982888W now JC-520082X),  
01 Nov 2004

Hav Jeetender Kumar Bhardwaj (3993146W now JC-  
520083A), 24 Dec 2004+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 7th Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Naresh Chand Jasrotia (3987408L now JC-520084H),  
07 Nov 2004

Hav Jagdip Singh (3987697L now JC-520085L), 01 Dec  
2004+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 7th Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Ravinder Singh (3984389A now JC-520086N), 01  
Jan 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 7th Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Charanji Lal Sharma (3984722N now JC-520087W),  
10 Nov 2004+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 7th Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Jasmer Singh (3985005M now JC-520088Y), 16 Jan  
2005

Hav Thakur Dass Pal (3987319M now JC-520115X), 29  
Mar 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Aug 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Des Raj (3982550L now JC-520116A), 01 Feb 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Vijay Kumar (3983814N now JC-520117H), 01 Dec  
2004

Hav Harish Chander (3984262X now JC-520118L), 01  
Dec 2004

Hav Desh Raj (3984331H now JC-520119N), 29 Dec 2004

Hav Joginder Singh (3983195L now JC-520120H), 01  
Jan 2005

Hav Ram Parshad (3983231L now JC-520121L), 01 Jan  
2005.

Hav Karnail Singh (3984353F now JC-520122N), 01 Jan  
2005

Hav Sudesh Kumar (3985050Y now JC-520123W), 01  
Jan 2005

Hav Mohan Singh (3984481Y now JC-520124Y), 01  
Jan 2005

Hav Baldip Raj (3983179N now JC-520125F), 07 Feb  
2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Feb 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ramesh Kumar (3983260A now JC-520126K), 01  
Feb 2005

Hav Sher Singh (3983633H now JC-520127M), 14 Apr  
2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Mar 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Balkar Singh (3985499F now JC-520128P), 01 Mar  
2005

Hav Surender Singh (3988598P now JC-520129X), 26  
Mar 2005



Hav Sudesh Kumar (3989091A now JC-520130M), 01 Apr 2005

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Tej Paul Rana (3985327M now JC-520131P), 01 Apr 2005

Hav/Clk Vijay Singh (3985328P now JC-520132X), 01 Apr 2005

#### THE GARHWAL RIFLES

To be Sub Maj

Sub Sufal Singh (JC-528316L), 01 Oct 2004

Sub Devender Singh (JC-528191Y), 01 Dec 2004

To be Sub Maj Clk

Sub (Clk) Santosh Pal Singh (JC-528249L), 01 Oct 2004

To be Sub

Nb Sub Manbar Singh (JC-529172A), 01 Jan 2004

Nb Sub Mahabir Singh (JC-529283X), 01 Mar 2004

Nb Sub Bilochan Singh (JC-529032N), 01 Jun 2004

Nb Sub Jagat Singh Rawat (JC-529264M), 01 Jun 2004

Nb Sub Ramesh Chand Tripathi (JC-529033W), 01 Jul 2004

Nb Sub Bharat Singh (JC-529324W), 01 Jul 2004

Nb Sub Dhan Singh (JC-529285H), 20 Jul 2004

Nb Sub Randhir Singh (JC-529080N), 01 Aug 2004

Nb Sub Budhi Ballab Joshi (JC-529125N), 01 Aug 2004

Nb Sub Guman Singh (JC-529289Y), 01 Aug 2004

Nb Sub Ganga Singh (JC-529394P), 01 Aug 2004

Nb Sub Nathu Singh (JC-529320A), 01 Aug 2004

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-529373Y), 01 Aug 2004

Nb Sub Dhiraj Singh (JC-529081W), 01 Sep 2004

Nb Sub Madan Singh (JC-529087X), 01 Sep 2004

Nb Sub Raghubir Singh (JC-529203P), 01 Sep 2004

Nb Sub Matwar Singh (JC-529188L), 01 Sep 2004

Nb Sub Jaipal Singh (JC-529364X), 01 Sep 2004

Nb Sub Kundan Singh (JC-529421N), 01 Sep 2004

Nb Sub Mohan Singh (JC-529053K), 01 Oct 2004

Nb Sub Jagdish Singh Rawat (JC-529156H), 01 Oct 2004

Nb Sub Pushkar Singh (JC-529175N), 01 Oct 2004

Nb Sub Diwan Singh (JC-529199X), 01 Oct 2004

Nb Sub Shasi Kant (JC-529201K), 01 Oct 2004

Nb Sub Bhupendra Singh (JC-529236A), 01 Oct 2004

Nb Sub Satendra Singh (JC-529239N), 01 Oct 2004

Nb Sub Prem Prakash Upreti (JC-529241L), 01 Oct 2004  
274-GI-E-2005

Nb Sub Mahender Singh Bist (JC-529248P), 01 Oct 2004

Nb Sub Narender Singh (JC-529259F), 01 Oct 2004

Nb Sub Shankar Singh (JC-529299H), 01 Oct 2004

Nb Sub Yadubir Singh (JC-529267A), 01 Oct 2004

Nb Sub Alam Singh (JC-529272L), 01 Oct 2004

Nb Sub Bikarm Singh (JC-529339Y), 01 Oct 2004

Nb Sub Par Singh (JC-529304H), 01 Oct 2004

Nb Sub Gaje Singh (JC-529455F), 01 Oct 2004

Nb Sub Pal Singh Negi (JC-529335H), 07 Oct 2004

Nb Sub Jagbir Singh (JC-529387Y), 24 Oct 2004

Nb Sub Khima Nand Nautiyal (JC-529107A), 01 Nov 2004

Nb Sub Data Ram (JC-529118M), 01 Nov 2004

Nb Sub Prem Singh (JC-529112L), 01 Nov 2004

Nb Sub Keshab Singh (JC-529115X), 01 Nov 2004

Nb Sub Madho Singh (JC-529340N), 01 Nov 2004

Nb Sub Gabar Singh Rawat (JC-529353L), 01 Nov 2004

Nb Sub Jagmohan Singh (JC-529367L), 01 Nov 2004

Nb Sub Ram Krishna (JC-529371N), 01 Nov 2004

Nb Sub Rajendra Singh Rawat (JC-529378X), 01 Nov 2004

Nb Sub Dayal Singh (JC-529388F), 01 Nov 2004

Nb Sub Pramod Prasad (JC-529389K), 01 Nov 2004

Nb Sub Bachan Singh (JC-529204X), 01 Dec 2004

Nb Sub Madan Singh (JC-529159W), 01 Dec 2004

Nb Sub Ram Dayal Bhardwaj (JC-529213Y), 01 Dec 2004

Nb Sub Madan Singh (JC-529251P), 01 Dec 2004

Nb Sub Rajendra Prasad (JC-529363P), 01 Dec 2004

Nb Sub Jagdish Singh (JC-529336L), 01 Dec 2004

Nb Sub Gokul Singh, SM (JC-529395X), 01 Dec 2004

Nb Sub Mohan Singh (JC-529405W), 01 Dec 2004

Nb Sub Dayal Singh (JC-529425K), 01 Dec 2004

Nb Sub Shri Krishan (JC-529433W), 01 Dec 2004

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-529457M), 01 Dec 2004

Nb Sub Rajee Singh (JC-529441F), 01 Dec 2004

Nb Sub Ghutti Lal (JC-529477A), 01 Dec 2004

Nb Sub Rajender Singh, SM (JC-529480A), 01 Dec 2004

Nb Sub Yatendra Singh (JC-529510M), 01 Dec 2004

Nb Sub Soban Singh (JC-529511P), 01 Dec 2004

Nb Sub Anil Khanduri (JC-529544A), 01 Dec 2004

Nb Sub Brijpal Singh (JC-529545H), 01 Dec 2004	Hav Yodhvir Singh (4064332K now JC-529835A), 13 Dec 2004
Nb Sub Chain Singh (JC-529254H), 16 Dec 2004	
Nb Sub Jasmal Singh (JC-529071M), 24 Dec 2004	Hav Meharwan Singh (4065672Y now JC-529836H), 25 Feb 2005/24 Dec 2004*
Nb Sub Ramesh Singh (JC-529091A), 25 Dec 2004	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Dec 2004 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Nathi Prasad (JC-529407F), 25 Dec 2004	Hav Kishan Singh (4066256P now JC-529837L), 10 Feb 2005/25 Dec 2004*
Nb Sub Umed Singh (JC-529337N), 27 Dec 2004	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Dec 2004 without effect on pay & allowances).
To be Sub (Clk)	Hav Om Prakash Singh (4063477H now JC-529838N), 01 Jan 2005
Nb Sub (Clk) Kundan Singh Rawat (JC-528977L), 01 Oct 2004	Hav Suriya Singh (4064411Y now JC-529839W), 01 Jan 2005
Nb Sub (Clk) Tajbar Singh (JC-528978N), 01 Oct 2004	Hav Laxman Singh (4064547H now JC-529840L), 05 Mar 2005/31 Jan 2005*
Nb Sub (Clk) Kunwar Singh (JC-528979W), 01 Oct 2004	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Jan 2005 without effect on pay & allowances).
Nb Sub (Clk) Bikram Singh (JC-528989A), 01 Dec 2004	Hav Bachan Singh (4066854Y now JC-529842W), 01 Feb 2005
Nb Sub (Clk) Bir Singh (JC-528990P), 01 Dec 2004	Hav Sudarshan Singh (4068186M now JC-529843Y), 01 Feb 2005
To be Sub (RT)	To be Nb Sub (Clk)
Nb Sub (RT) Hari Datt Deorani (JC-528244M), 01 Dec 2004	Hav (Clk) Awadh Raj Singh (4065488N now JC-529841N), 05 Mar 2005/01 Feb 2005*
To be Sub (Musn)	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay & allowances).
Nb Sub (Musn) Surendra Singh (JC-528986M), 01 Sep 2004	THE MADRAS REGIMENT
Nb Sub (Musn) Baladan Dayudhan S (JC-529011X), 01 Sep 2004	To be Subedar
Nb Sub (Musn) Surendra Singh (JC-528984F), 01 Nov 2004	Nb Sub VC Prasanna Kumar (JC-438943W), 01 Dec 2004
To be Nb Sub	Nb Sub Chandrappa B (JC-439006L), 13 Dec 2004
Hav Manwar Singh Bist (4064767M now JC-529828K), 24 Feb 2005/01 Sep 2004*	Nb Sub Rajasekharan Chettiar C (JC-439047P), 19 Dec 2004
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay & allowances).	Nb Sub Veerappa Karaveeranavar (JC-439062K), 10 Jan 2005
Hav Raghubir Singh (4065652L now JC-529829M), 08 Feb 2005/30 Oct 2004*	Nb Sub Raveendran M (JC-438999H), 11 Jan 2005
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Oct 2004 without effect on pay & allowances).	Nb Sub Suresh S (JC-439039W), 01 Apr 2005
Hav Gajender Singh (4067598F now JC-529830F), 01 Nov 2004	Nb Sub Mohanan NK (JC-439229H), 01 Apr 2005
Hav Kunwar Singh (4068098W now JC-529831K), 01 Dec 2004	Nb Sub Basappa Aiholi (JC-439088Y), 01 May 2005
Hav Bijai Singh (4068140K now JC-529832M), 01 Dec 2004	Nb Sub FA Maria Cruz (JC-439089F), 01 May 2005
Hav Nathi Singh Pundir (4067317A now JC-529833P), 01 Dec 2004	To be Sub Maj
Hav Laxman Singh Chauhan (4066053X now JC-529834X), 07 Jan 2005/01 Dec 2004*	Sub A Muthu (JC-224176N), 01 Jan 2005
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay & allowances).	

Sub Ebrahim T (JC-193667A), 25 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2005 without effect on pay & allowances).

To be Sub Maj (Musn)

Sub (Musn) P Subramani (JC-438687M), 01 Dec 2004

To be Sub

Nb Sub B William Joseph (JC-439092F), 01 Sep 2004

Nb Sub Muraleedharan KS (JC-439180X), 10 Jan 2005

Nb Sub Sannayallappa Talawar (JC-439106W), 01 Feb 2005

Nb Sub Manogar P (JC-439107Y), 01 Jul 2004

Nb Sub G Thiagarajan (JC-438949X), 01 Oct 2004

Nb Sub A Markondyulu (JC-439265N), 21 Dec 2004

Nb Sub Thotakura Naganiranjana Rao (JC-439266W), 27 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 02 Jan 2005 without effect on pay & allowances).

Nb Sub C Ganesa Pandi (JC-439267Y), 02 Jan 2005

Nb Sub Saji M (JC-439149L), 31 Jan 2005

Nb Sub B Dhasaratha Rao (JC-439268F), 02 Feb 2005

Nb Sub M Vinayakam (JC-439082X), 01 Mar 2005

Nb Sub T Ravi (JC-439186Y), 01 Mar 2005

To be Nb Sub

Hav Bhimrao Khanai (2585816N now JC-439546K), 25 Dec 2004

Hav V Gopa Kumar (2590700F now JC-439547M), 25 Dec 2004

Hav K Sekharan (2587894K now JC-439555L), 10 Jan 2005

Hav Suresh Kumar TV (2590637X now JC-439548P), 26 Jan 2005

Hav Vadde Nagaraju (2592751N now JC-439559F), 31 Jan 2005

Hav Sree Haripriyan PK (2589929N now JC-439536A), 01 Feb 2005

Hav V Umaphathi (2587029L now JC-439557W), 06 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2005 without effect on pay & allowances).

Hav K Ganapathi (2589165A now JC-439556N), 09 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2005 without effect on pay & allowances).

1 GR

To be Nb Sub

Hav Tara Bahadur Thapa (5043358F now JC-602594W), 15 Jan 2005\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on Pay & allces wef 01 Jan 2005).

Hav Purna Bahadur Gurung (5043655P now JC-602595Y), 01 Feb 2005

CHM Chandra Bahadur Gurung (5043721M now JC-602596F), 01 Mar 2005

Hav Bhim Bahadur Thapa (5043629N now JC-602597K), 01 Mar 2005

Hav Krishna Bahadur Gurung (5044307A now JC-602598M), 01 Mar 2005

Hav Khim Bahadur Gurung (5043222X now JC-602599P), 11 Mar 2005\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on Pay & allces wef 01 Mar 2005).

Hav Rekam Bahadur Pun (5043197K now JC-602600Y), 02 Mar 2005\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on Pay & allces wef 05 Dec 2004).

Hav Thaman Bahadur Thapa (5043834P now JC-602601F), 31 Mar 2005\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on Pay & allces wef 28 Feb 2005).

Hav Maita Bahadur Gurung (5042990M now JC-602602K), 01 Apr 2005\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on Pay & allces wef 28 Feb 2005).

Hav Dev Prasad Gurung (5043274N now JC-602603M), 01 Apr 2005\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on Pay & allces wef 01 Mar 2005).

Hav Bhim Bahadur Gurung (5043239L now JC-602604P), 13 Mar 2005\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on Pay & allces wef 01 Mar 2005).

CHM Tul Bahadur Thapa (5043170M now JC-602605X), 01 Apr 2005

Hav Bishnu Bahadur Thapa (5043652F now JC-602606A), 10 Apr 2005\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on Pay & allces wef 01 Apr 2005).

To be Nb Sub (RT)

Nb Sub (RT) Sangam Lal Mishra (602557H now JC-602557H), 11 Dec 2004

Nb Sub (RT) Ram Mani Pathak (602558L now JC-602558L), 19 Feb 2005

5 GR (FF)

To be Nb Sub (GD)

Hav Ishwor Bahadur Gurung (5449484X now JC-617723H), 18 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Krishna Bahadur Rana (5448758L now JC-617724L), 08 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Til Prasad Gurung (5448976K now JC-617725N), 25 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dal Bahadur Ale (5450190W now JC-617726W), 25 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dil Bahuur Budhathoki (5449929Y now JC-617727Y), 19 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Musn)

Hav Krishna Bahadur Gurung (5449802W now JC-617728F), 12 Feb 2005

Hav Lahit Bahadur Gurung (5449741K now JC-617729K), 12 Feb 2005

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Deo Bahadur Thapa (5749814K now JC-623608Y), 01 Jan 2005

Hav Phatta Bahadur Thapa (5751105N now JC-623610W), 12 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Nar Singh Thapa (5751175M now JC-623609F), 01 Feb 2005

Hav Jaya Bahadur Gurung (5751202L now JC-623611Y), 01 Feb 2005

Hav Rim Lal Shreshtha (5750653Y now JC-623612F), 01 Mar 2005

Hav Rishi Ram Pun (5752108N now JC-623613K), 16 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

## LADAKH SCOUTS

To be Subedar Major (GD)

Sub Chhering Phunchok (JC-204396W), 30 Oct 2004/01 Oct 2004@

Sub Tashi Dorje (JC-221083N), 25 Oct 2004/01 Oct 2004@

Sub Tsering Samphel (JC-221084W), 01 Nov 2004

Sub Tashi Chhepal, VrC (JC-226210F), 13 Nov 2004/01 Nov 2004@

To be Subedar (GD)

Nb Sub Chhewang Nurbu (JC-588236X), 15 Jul 2004/01 Jun 2004@

Nb Sub Phunchok Dorje (JC-588238H), 10 Sep 2004/01 Aug 2004@

Nb Sub Sonam Rinchen (JC-588241H), 26 Oct 2004/01 Oct 2004@

Nb Sub Thugje Tashi, SM (JC-588242L), 06 Nov 2004/01 Nov 2004@

Nb Sub Sham Lal (JC-588243N), 10 Nov 2004/01 Nov 2004@

Nb Sub Sonam Angdus (JC-588244W), 05 Nov 2004/01 Nov 2004@

Nb Sub Chhering Phunchok (JC-588245Y), 05 Nov 2004/01 Nov 2004@

Nb Sub Lobzang Chhering (JC-588145N), 22 Feb 2005/07 Dec 2004@

Nb Sub Mohd Sadi (JC-588327F), 25 Feb 2005/07 Dec 2004@

Nb Sub Sonam Targes, YSM (JC-588328K), 26 Feb 2005/01 Jan 2005@

To be Subedar Clerk (GD)

Nb Sub (Clk) Vijay Singh Jasrotia (JC-588223A), 25 Sep 2004/01 Sep 2004@

Nb Sub (Clk) Baljit Singh Jamwal (JC-588224H), 15 Sep 2004/01 Sep 2004@

Nb Sub (Clk) Tsering Wangdus (JC-588225L), 05 Oct 2004/01 Oct 2004@

Nb Sub (Clk) Sonam Chanjor (JC-588226N), 01 Feb 2005

To be Naib Subedar (GD)

Hav Tashi Tundup (9922539N now JC-588362K), 23 Oct 2004/04 Aug 2004@

Hav Tashi Namglal (9923371Y now JC-588363W), 20 Nov 2004/04 Aug 2004@

Hav Chhewang Gilik (9922542N now JC-588364P), 22 Nov 2004/04 Aug 2004@

Hav Rigzin Phunchok (9922795H now JC-588365X), 06 Nov 2004/04 Aug 2004@

Hav Chhering Angchok (9922805F now JC-588366A), 20 Nov 2004/04 Aug 2004@

Hav Sonam Rigzin (9922328L now JC-588369A), 20 Nov 2004/01 Sep 2004@

Hav Zafar Ali (9922511N now JC-588371L), 22 Nov 2004/01 Oct 2004@

Hav Sonam Targias (9923195M now JC-588372N), 06 Nov 2004/01 Oct 2004@

Hav Chhetan Gialchan (9923233X now JC-588373W), 02 Dec 2004/01 Nov 2004@

Hav Skarma Ishe (9923299N now JC-588374Y), 27 Nov 2004/01 Nov 2004@

Hav Chhering Stobdan, SM (9923308K now JC-588375F), 02 Dec 2004/01 Nov 2004@

Hav Skarma Tashi (9923318N now JC-588376K), 22 Nov 2004/01 Nov 2004@

Hav Chhering Dorje (9923323Y now JC-588377M), 02 Dec 2004/01 Nov 2004@

Hav Thukje Geelik (9923331X now JC-588378P), 09 Dec 2004/01 Dec 2004@

Hav Rigzin Chepel (9923328X now JC-588379X), 27 Dec 2004/01 Dec 2004@

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav (Clk) Gh Mohd Bhat (9923082K now JC-588367H), 07 Oct 2004/01 Sep 2004@

Hav (Clk) Skarma Paljor (9923084P now JC-588368L), 20 Sep 2004/01 Sep 2004@

Hav (Clk) Skarma Motup (9923103P now JC-588370H), 20 Oct 2004/01 Oct 2004@

Hav (Clk) Bashir Ahmad Ganai (9922991H now JC-588380M), 01 Feb 2005

Hav (Clk) Lamchung Tsering (9923086A now JC-588381P), 01 Feb 2005

@(Gtd ante date seniority without effect on pay and allowances).

#### THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub Clk

Hav (Clk) Pratap Singh Hooda (2984008X now JC-479622N), 01 Apr 2005

To be Nb Sub

Hav Suraj Mal (2982254K now JC-479623W), 19 Nov 2004

Hav Sadhu Ram Verma (2983840Y now JC-479624Y), 19 Nov 2004

Hav Om Prakash (2984984N now JC-479625F), 01 Feb 2005

Hav Devendra Singh Tomar (2981827W now JC-479626K), 13 Mar 2005

\*(Gtd ante date seniority wef 12 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jitendra Singh (2983095K now JC-479627M), 04 Apr 2005

\*(Gtd ante date seniority wef 17 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ran Singh (2984147F now JC-479628P), 01 Apr 2005

Hav Ram Vilas (2982570H now JC-479629X), 07 May 2005

\*(Gtd ante date seniority wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kaushlesh Singh (2980464L now JC-479630M), 01 May 2005

Hav Narendra Singh (2981780W now JC-479631P), 01 May 2005

Hav Ravinder Singh (2983385F now JC-479632X), 01 May 2005

Hav Sushil Kumar (2882246W now JC-479633A), 01 May 2005

Hav Bhoora Singh (2983745M now JC-479634H), 01 May 2005

Hav Jas Ram Singh (2983800X now JC-479635L), 01 May 2005

Hav Dhram Pal Singh Gujjar (2981019Y now JC-479636N), 08 May 2005

Hav Om Pal (2984901X now JC-479637W), 12 May 2005

#### SPECIAL LIST

#### THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Muniendra Kumar (JC-479427W), 13 Aug 2004

Pitamber Dwivedi (JC-479428Y), 27 Aug 2004

Gyaneshwar Prasad Mishra (JC-479597A), 12 Feb 2005

#### 9 GR

To be Sub Major (Musn)

Rank, Name, Army No. and Date of Promotion

Sub (Musn) Ram Bahadur Nepali (JC-629292M), 01 Dec 2004

#### THE PARACHUTE REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Prahlad Singh (JC-412610M), 01 Jan 2005

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-412601M), 01 Jan 2005

Nb Sub Suraj Bhan (JC-412586F), 09 Jan 2005	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allces).
Nb Sub Roshan Lal (JC-412605F), 01 Feb 2005	Hav Surendra Kumar (No. 13616198L now JC-412935A), 21 Feb 2005
Nb Sub Jaspal Singh (JC-412629L), 01 Feb 2005	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allces).
Nb Sub Pitam Singh (JC-412602M), 01 Mar 2005	To be Nb Sub (Clk)
Nb Sub Gopi Ram Mittar (JC-412562X), 01 Mar 2005	Hav (Clk) Sanwaru Yadawa (No. 13615243A now JC-412929M), 01 Oct 2004
Nb Sub Narinder Singh, SM (JC-412567W), 10 Mar 2005	Hav (Clk) Surender Kumar (No. 13618950P now JC-412934X), 01 Jan 2005
Nb Sub Ram Sewak (JC-412624M), 01 Apr 2005	JAK RIF
Nb Sub Laxmi Narayan (JC-412532N), 01 May 2005	To be Nb Sub (GD)
To be Nb Sub	Hav Gopal Chhetri (13747159H now JC-579950W), 21 Oct 2004*
Hav Ajit Singh Kasana (No. 13617204A now JC-412942W), 01 Dec 2004	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 04 Jul 2004).
Hav Joginder Singh (No. 13616510H now JC-412943Y), 15 Mar 2005	Hav Chander Bahadur Gurung (13747684Y now JC-579951Y), 27 Oct 2004*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allces).	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2004).
Hav Pratap Singh (No. 13614383A now JC-412944F), 08 Mar 2005	Hav Rasila Ram (13749453F now JC-579952F), 21 Oct 2004*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allces).	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2004).
Hav Kartar Singh (No. 13615853M now JC-412945K), 08 Apr 2005	Hav Gurbachan Singh (13743569F now JC-579953K), 11 Oct 2004*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allces).	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
Hav Suresh Sharma (No. 3988125W now JC-412946M), 06 Nov 2004	Hav Naryan Singh (13749587A now JC-579954M), 08 Nov 2004*
Hav Pema Ram (No. 13614613H now JC-412947P), 06 Nov 2004	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
Hav Subhash Chander (No. 13616266N now JC-412948X), 06 Nov 2004	Hav Tarlochan Singh (13752298F now JC-579955P), 08 Nov 2004*
Hav Krishan Murari (No. 13616302N now JC-412949A), 23 Apr 2005	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Mar 2005 without effect on pay and allces).	Hav Arun Kumar (13744926L now JC-579956X), 20 Oct 2004*
Hav Fathe Singh (No. 13616766L now JC-412950P), 01 Apr 2005	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
Hav Ashok Kumar (No. 4069985P now JC-412928K), 01 Dec 2004	Hav Manjit Singh, SC (13746412M now JC-579957A), 20 Oct 2004*
Hav Surender Singh (No. 13617170A now JC-412930F), 19 Oct 2004	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Jun 2004 without effect on pay and allces).	Hav Harish Chander (13748786F now JC-579958H), 21 Oct 2004*
Hav Shridhara KS (No. 13617327M now JC-412931K), 01 Oct 2004	
Hav Challa Rama Mohana Rao (No. 13617968Y now JC-412932M), 01 Nov 2004	
Hav Muni Swamy SK (No. 13618015H now JC-412933P), 13 Dec 2004	

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).

Hav Birbal (13748676M now JC-579959L), 21 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).

Hav Baldev Singh (13746802P now JC-579960A), 21 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).

Hav Jagdish Lal (13746012A now JC-579961H), 01 Oct 2004

Hav Suresht Kumar Sahota (13747064H now JC-579962L), 23 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).

Hav Mehar Singh (13747690M now JC-579963N), 23 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).

Hav Dhamender (13746085M now JC-579964W), 03 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2004).

Hav Dinesh Chand (13748152L now JC-579965Y), 11 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2004).

Hav Kulvir Singh (13746048Y now JC-579966F), 02 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2004).

Hav Gurdev Ram (13746751M now JC-579967K), 01 Nov 2004

Hav Ravinder Singh (13746064W now JC-579968M), 10 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2004).

To be Nb Sub Ck (GD)

Hav (Ck) Dharm Pal Sharma (13749736H now JC-579949F), 30 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004).

THE SIKH LI

To be Sub Maj (GD)

Sub Jagrup Singh (JC-508279F), 01 Nov 2004

Sub Surjit Singh (JC-508260H), 01 Nov 2004

Sub Bhag Singh (JC-208381L), 01 Feb 2005

To be Sub Maj (Clerk) (GD)

Sub (Clerk) Amarjit Ram (JC-508197Y), 01 Jan 2005

Sub (Clerk) Ram Mehar Singh (JC-508294W), 01 Mar 2005

To be Nb Sub (GD)

Hav Karamjit Singh (4462248Y now JC-509194X), 14 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Jul 2004).

Hav Balkar Singh (4462048H now JC-509195A), 14 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 08 Aug 2004).

Hav Trilok Singh (4462495M now JC-509196H), 10 Aug 2004

Hav Sarup Singh (4462664H now JC-509197L), 01 Oct 2004 2004

Hav Nahar Singh (4465851M now JC-509198N), 01 Oct 2004

Hav Chhinderpal Singh (4463947W now JC-509199W), 01 Oct 2004

Hav Lakhvir Singh (4463499P now JC-509200A), 01 Oct 2004

Hav Baljit Singh (4468524M now JC-509201H), 01 Oct 2004

Hav Mukhtar Singh (4465693H now JC-509202L), 15 Oct 2004

Hav Jaswinder Singh (4463266N now JC-509203N), 10 Nov 2004

Hav Surjit Singh Dulchi (4465408Y now JC-509204W), 12 Nov 2004

Hav Avtar Singh (4462034H now JC-509205Y), 04 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2004).

Hav Shinder Singh (4465987W now JC-509206F), 01 Dec 2004

Hav Gurmukh Singh (4463140N now JC-509207K), 28 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 11 Dec 2004).

Hav Gulzar Singh (4463501F now JC-509208M), 01 Jan 2005

## THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

CHM Bharat Singh Bisht (No. 4176408A now JC-539701P), 05 Feb 2005/01 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Khushal Singh (No. 4177621M now JC-539693F), 06 Jan 2005/01 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

CHM Gajendra Singh (No. 4180200P now JC-539705L), 10 Jan 2005/01 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jagat Singh (No. 4175898M now JC-539706N), 10 Jan 2005/01 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Anand Singh Nayal (No. 4181346P now JC-539661Y), 18 Dec 2004/01 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bhuwan Chandra Kapari (No. 4175677A now JC-539660Y), 20 Dec 2004/01 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

CHM Thakur Singh Rawat (No. 4176170L now JC-539662F), 18 Dec 2004/01 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

RPHM Kishan Singh (No. 4178995P now JC-539710N), 10 Feb 2005/01 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

CQMH Mohan Chandra (No. 4179549A now JC-539711Y), 10 Feb 2005/01 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Keshav Datt Joshi (No. 4175130X now JC-539702X), 29 Jan 2005/18 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Nandan Singh (No. 4178123M now JC-539703A), 05 Feb 2005/01 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Prithvi Raj Rautela (No. 4177379H now JC-539704H), 04 Feb 2005/01 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

CHM Hayat Singh (No. 41701238P now JC-539677K), 20 Jan 2005/03 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Singh (No. 4181123X now JC-539676F), 20 Jan 2005/03 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Har Singh Kathayat (No. 4182691P now JC-539687L), 28 Jan 2005/18 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Manbar Singh (No. 4179777H now JC-539709F), 10 Feb 2005/01 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gopal Singh (No. 4177168A now JC-539689Y), 20 Jan 2005/01 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Roop Singh (No. 4176900L now JC-539688W), 31 Jan 2005/01 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jaman Singh (No. 4180402W now JC-539690N), 20 Jan 2005/01 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Singh (No. 4177684P now JC-539697X), 01 Feb 2005/10 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

CQMH Raj Pal (No. 4183103H now JC-539667A), 20 Nov 2004/01 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

CQMH Suresh Kumar (No. 4182973N now JC-539666X), 20 Nov 2004/01 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dayanand Yadav (No. 4175240M now JC-539680K), 14 Dec 2004/01 Nov 2004\*



- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Mukesh Kumar (No. 4181372W now JC-539712F), 22 Feb 2005/01 Feb 2005\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).  
Hav Shamsher Singh (No. 4178017N now JC-539713K), 22 Feb 2005/01 Feb 2005\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).  
Hav Lal Chand Yadav (No. 3178418M now JC-539691W), 03 Jan 2005/01 Dec 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).  
CQMh Nandan Singh (No. 14701760X now JC-539714M), 10 Feb 2005/07 Jan 2005\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jan 2005 without effect on pay and allowances).  
CHM Fakir Singh (No. 4179019L now JC-539715P), 10 Feb 2005/01 Feb 2005\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).  
Hav Narender Singh Yadav (No. 4182103W now JC-539717A), 10 Feb 2005/01 Feb 2005\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).  
Hav Birender Singh (No. 4180413H now JC-539716X), 18 Feb 2005/01 Feb 2005\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).  
Hav Devender Singh (No. 4176831A now JC-539669L), 07 Dec 2004/01 Oct 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Shiv Karan Singh (No. 4174945M now JC-539681M), 07 Dec 2004/01 Nov 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Shyam Bir Singh (No. 4178454N now JC-539682P), 07 Dec 2004/01 Nov 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Mahesh Singh (No. 4179604L now JC-539683K), 07 Dec 2004/01 Nov 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Kalu Singh (No. 4178939W now JC-539678M), 07 Jan 2005/03 Oct 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Oct 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Anand Singh (No. 4177166P now JC-539670A), 01 Jan 2005/01 Oct 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Govind Singh (No. 4179669Y now JC-539671H), 01 Jan 2005/01 Oct 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Hari Datt (No. 4176691Y now JC-539684A), 01 Jan 2005/01 Nov 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).  
CHM Balwant Singh (No. 4178106M now JC-539686L), 01 Jan 2005/08 Nov 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Nov 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Lashmi Shankar Yadav (No. 4175892L now JC-539663K), 26 Sep 2004/01 Aug 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Ramesh Chand Yadawa (No. 3178678X now JC-539665P), 26 Sep 2004/01 Sep 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Mukesh Kumar (No. 4180417Y now JC-539664M), 24 Sep 2004/01 Sep 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).  
CQMh Inder Singh (No. 4177561H now JC-539672L), 29 Oct 2004/01 Oct 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Mahiman Singh Koshiyari (No. 4180840Y now JC-539674W), 03 Nov 2004/01 Oct 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Hoshier Singh (No. 14701249F now JC-539718H), 30 Dec 2004/01 Oct 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Suresh Lal Sah (No. 4177919W now JC-539673N), 09 Jan 2005/01 Oct 2004\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).  
Hav Jagdish Prasad (No. 4180880A now JC-539685H), 07 Jan 2005/01 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

CHM Nandan Singh Khatri (No. 4175931Y now JC-539707W), 05 Feb 2005/01 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Chand (No. 4178373N now JC-539708Y), 05 Feb 2005/01 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kanwar Singh (No. 4174183K now JC-539519F), 23 Dec 2004/01 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Lal Singh Yadav (No. 4174304A now JC-539694K), 01 Jan 2005

Hav Diwan Singh (No. 4176099H now JC-539675Y), 05 Jan 2005/01 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jokhan Yadav (No. 4175891H now JC-539695M), 05 Jan 2005/01 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

CHM Ram Babu (No. 4175950K now JC-539696P), 05 Jan 2005/01 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh (No. 4177208W now JC-539679P), 03 Jan 2005/18 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gopal Singh (No. 4179652L now JC-539719L), 01 Mar 2005

#### THE NAGA REGIMENT

CHM LH Raingam (No. 14702135H now JC-590158K), 11 Jan 2005/01 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kaikho Athisu (No. 14701832W now JC-590157F), 28 Dec 2004/01 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

#### THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Lalthunga Darlong (4354722X now JC-549032P), 14 Aug 2004/01 Mar 2004

Hav Yan Bahadur Thapa (4353722L now JC-549051A), 18 Dec 2004/25 Aug 2004

Hav Velson (4354946X now JC-549053L), 11 Dec 2004/01 Oct 2004

Hav M Khanzalam (4354981A now JC-549054N), 01 Dec 2004/01 Oct 2004

Hav Lalit Aley (4355084W now JC-549055W), 11 Dec 2004/04 Oct 2004

Hav Dwijen Chandra Basumatary (4355365M now JC-549056Y), 11 Dec 2004/01 Nov 2004

Hav Shyamal Chandra Paul (4355201W now JC-549057F), 11 Dec 2004/01 Nov 2004

Hav Mohan Kumar Shresta (4352376N now JC-549058K), 18 Dec 2004/01 Oct 2004

Hav Dhiren Chandra Das (4352979K now JC-549059M), 12 Dec 2004/01 Oct 2004

Hav Amar Nath Thapa (4353233A now JC-549060F), 18 Dec 2004/01 Nov 2004

Hav Nirmal Ch Boro (4356305K now JC-549062M), 17 Dec 2004/01 Mar 2004

Hav Uma Kanta Bora (4356157K now JC-549064X), 26 Dec 2004/01 Sep 2004

Hav PC Lalduhawma (4355995M now JC-549065A), 26 Dec 2004/01 Oct 2004

Hav Paresh Boruah (4356184N now JC-549066H), 26 Dec 2004/28 Oct 2004

Hav Baba Sena Singha (4355007F now JC-549067L), 22 Dec 2004/01 Dec 2004

Hav Rambilash Pandit (4355146L now JC-549068N), 22 Dec 2004/01 Dec 2004

Hav Kamkholam, VrC (4354167F now JC-549069W), 22 Dec 2004/01 Dec 2004

Hav Bishu Dev Barman (4356628M now JC-549073Y), 27 Jan 2005/01 Sep 2004

Hav Roukhom Rokhom (4356662M now JC-549074F), 14 Jan 2005/01 Sep 2004

Hav Utpal Ch Kalita (4356681X now JC-549075K), 31 Jan 2005/08 Oct 2004

Hav Helun Kipgen (4352593K now JC-549076M), 01 Feb 2005/25 Nov 2004

Hav Thang Thang Kuki (4352453X now JC-549077P), 01 Feb 2005/25 Nov 2004

Hav Siteswar Bordoloi (4358483L now JC-549078X), 02 Feb 2005/25 Nov 2004

Hav Jagat Bahadur Thapa (4357539A now JC-549079A), 01 Feb 2005/25 Nov 2004

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Palash Boruah (4353467K now JC-549072W),  
20 Dec 2004/01 Nov 2004

To be Nb Sub RT

Rect RT (Pandit) Vidya Kant Pandey (549037N now JC-549037N), 11 Dec 2004

# CORPS OF MILITARY POLICE

To be Nb Sub

Hav Kartar Singh (No. 7773052M now JC-818958L), 23 Jan 2005#

Hav Sujit Kumar Mudi (No. 7772962N now JC-818959N), 10 Jan 2005\*

Hav Dhooora Ram (No. 7773161Y now JC-818960H), 14 Jan 2005\*

Hav Tirlok Chandra Sharma (No. 7771880Y now JC-818961L), 01 Jan 2005

Hav Arjun Singh K (No. 7772768Y now JC-818962N), 01 Jan 2005

Hav Jagdish Chander (No. 7772985P now JC-818963W), 01 Jan 2005

Hav Bipul Kumar Pandey (No. 7771754M now JC-818964Y), 01 Jan 2005

Hav Krishna Moorthy P (No. 7773129K now JC-818965F), 01 Jan 2005

Hav Ekadashi Prasad (No. 7773159F now JC-818966K), 05 Jan 2005

Hav Md Shawkat Khan (No. 7773151P now JC-818967M), 01 Jan 2005

Hav Ashim Majumdar (No. 7772943H now JC-818968P), 01 Jan 2005

Hav Beera Ratna Raju (No. 7773107L now JC-818969X), 10 Jan 2005\*

Hav Dhanesh R (No. 7772688F now JC-818970M), 03 Jan 2005\*

Hav Khitish Chandra Das (No. 7772896W now JC-818971P), 11 Jan 2005\*

Hav Bhartendu Mishra (No. 7772563K now JC-818972X), 07 Jan 2005\*

Hav Amrendra Mishra (No. 7773023X now JC-818973A), 15 Jan 2005\*

Hav Nar Singh Pal (No. 7773149X now JC-818974X), 10 Jan 2005\*

Hav Raju G (No. 7773077Y now JC-818975L), 01 Jan 2005

Hav Philip Kutty L (No. 7773076W now JC-818976N), 07 Jan 2005\*

Hav Daud Horo (No. 7773253L now JC-818977W), 01 Jan 2005

Hav Vijay Kumar Dubey (No. 7773374M now JC-818978Y), 24 Jan 2005\*

Hav Lakheshwar Dutta (No. 7773386F now JC-818979F), 01 Jan 2005

Hav Shailendra Singh (No. 7773392P now JC-818980W), 01 Jan 2005

Hav Skaria MK (No. 7773423K now JC-818981Y), 01 Jan 2005

Hav Godhan Singh Bisht (No. 7773418H now JC-818982F), 01 Jan 2005

Hav Barun Kumar (No. 7773429L now JC-818983K), 04 Jan 2005\*

Hav Nandha Ballabh (No. 7773426X now JC-818984M), 17 Jan 2005\*

Hav Ganga Ram (No. 7773442P now JC-818985P), 03 Jan 2005\*

Hav T Basanto Singh (No. 7773447N now JC-818986X), 10 Jan 2005\*

Hav Murari Singh Tanwar (No. 7773405H now JC-818987A), 03 Jan 2005\*

Hav Ram Prit Singh (No. 7773428H now JC-818988H), 03 Jan 2005\*

Hav Puran Mal Saini (No. 7773444A now JC-818989L), 01 Jan 2005

Hav Samala Dasu (No. 7773450N now JC-818990A), 03 Jan 2005\*

Hav Ram Singh (No. 7773691N now JC-818991H), 01 Jan 2005

Hav Ashok Singh (No. 7773453F now JC-818992L), 10 Jan 2005\*

Hav Torash Kumar (No. 7773455M now JC-818993N), 10 Jan 2005

Hav Malleshappa (No. 7773088L now JC-818994W), 05 Jan 2005\*

Hav Jasmal Singh (No. 7773090H now JC-818995Y), 01 Jan 2005

Hav Aminuddin Khan (No. 7772931N now JC-818996F), 06 Jan 2005\*

Hav Virendra Kumar Thakur (No. 7773483Y now JC-818997K), 06 Jan 2005\*

Hav Yashwant Singh (No. 7773484F now JC-818998M), 01 Jan 2005

Hav Binit Kumar (No. 7773555X now JC-818999P), 10 Jan 2005\*

Hav Sunil Kumar Chaobey (No. 7773499K now JC-819000W), 11 Jan 2005\*

Hav Om Prakash (No. 7773468K now JC-819001Y), 07 Jan 2005\*

Hav Ram Adhar Singh (No. 7773509H now JC-819002F), 15 Jan 2005\*

Hav Mangu Singh Bhati (No. 7773497Y now JC-819003K), 14 Jan 2005\*

Hav Sree Kumar PD (No. 7773396L now JC-819004M), 08 Jan 2005\*

Hav Mohan Babu (No. 7773391M now JC-819005P), 07 Jan 2005\*

Hav Satnam Singh (No. 7773414H now JC-819006X), 11 Jan 2005\*

Hav Kanchan Singh (No. 7773505M now JC-819007A), 11 Jan 2005\*

Hav Anand Singh Dhami (No. 7773521K now JC-819008H), 01 Jan 2005

Hav Badri Nath (No. 7773514N now JC-819009L), 01 Feb 2005

Hav Bijender Singh (No. 7773433N now JC-819010A), 02 Feb 2005\$

Hav Nirotam Singh (No. 7773518K now JC-819011H), 01 Feb 2005

Hav Laxman Oraon (No. 7773524X now JC-819012L), 01 Mar 2005

Hav Inaganti Nageswara Rao (No. 7773520F now JC-819013N), 17 Mar 2005@

Hav P Raja Kumar (No. 7773526H now JC-819014W), 01 Mar 2005

Hav Raghuopathy C (No. 7773557H now JC-819015Y), 01 Mar 2005

Hav Padmanabhan K (No. 7772865W now JC-819017K), 06 Apr 2005%

Hav Shiv Karan Mishra (No. 7773048K now JC-819018M), 01 Apr 2005

Hav Ram Bharos Gaur (No. 7773696M now JC-819019P), 01 Apr 2005

Hav Shanthi Kumar (No. 7773564Y now JC-819020K), 01 Apr 2005

Hav Pranab Kumar Barman (No. 7773566K now JC-819021M), 01 Apr 2005

Hav Rati Ram Gurjar (No. 7773531N now JC-819022P), 01 Apr 2005

Hav Pawan Singh (No. 7773578Y now JC-819023X), 01 Apr 2005

Hav Parshu Ram (No. 7773596F now JC-819024A), 01 Apr 2005

Hav Rajesh Chandra (No. 7773602K now JC-819025H), 01 Apr 2005

Hav Rameshwar Pradhan (No. 7773604P now JC-819026L), 01 Apr 2005

#(Granted seniority with effect from 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

\*(Granted seniority with effect from 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

&(Granted seniority with effect from 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

@(Granted seniority with effect from 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

%(Granted seniority with effect from 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (Clerk/GD)

Hav Dharam Narain Shukla (No. 7772033P now JC-818952K), 01 Jan 2005

Hav Ramesh Lal Jakhar (No. 7773299N now JC-818953M), 17 Jan 2005\*

Hav Chheda Lal (No. 7773304N now JC-818954P), 15 Jan 2005\*

Hav Rajinder Singh (No. 7773317L now JC-818955X), 17 Jan 2005\*

Hav Sushil Kumar Singh (No. 7773325K now JC-818956A), 10 Jan 2005\*

Hav Yuvraj Singh Shekhawat (No. 7773406A now JC-818957H), 11 Jan 2005\*

Hav Abdul Malek (No. 7773352N now JC-819016F), 01 Apr 2005

\*(Granted seniority with effect from 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

JAK LI

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub (GD) Ghulam Mohi Din Khan (JC-592222P), 19 Nov 2004

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2004)

Sub (GD) Karnail Singh (JC-592346K), 04 Nov 2004

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2004)

Sub (GD) Murli Lal Sharma (JC-592243L), 12 Mar 2005

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2005)

Sub (GD) Ravinder Singh (JC-592271Y), 01 Apr 2005

Sub (GD) Shiv Lal (JC-592223X), 09 Apr 2005

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2005)

Sub Romesh Kumar (JC-592215Y), 03 Mar 2005

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2005)

Sub Surinder Kumar, SM (JC-592230N), 02 Mar 2005

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2005)

Sub Surinder Singh (JC-592113H), 07 Mar 2005

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2005)

To be Substantive Subedar Clerk

Nb Sub (Clk) Naresh Kumar (JC-592962K), 01 Mar 2005

Nb Sub (Clk) Yudhbir Singh (JC-592963M), 01 Mar 2005

Nb Sub (Clk) Som Nath Sharma (JC-593104F), 05 Jan 2005

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2005)

Nb Sub (Clk) Pratap Singh Kapkoti (JC-592986N), 01 Apr 2005

Nb Sub (Clk) Zile Singh Tada (JC-592987W), 01 May 2005

Nb Sub (Clk) Ab Majeed Mir (JC-592988Y), 01 May 2005

#### THE SIKH REGIMENT

To be Subedar Majors

Sub Nirmal Singh (JC-498138W), 17 Jan 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Sukhchain Singh, SC (JC-498054H), 01 Apr 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Mengha Singh (JC-224540F), 01 Apr 2005

Sub Santokh Singh (JC-224545A), 07 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Major Clerk

Sub (Clk) Sucha Singh (JC-498078M), 09 May 2005

To be Subedars

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-499021K), 03 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 13 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sawaran Singh, SM (JC-499147K), 20 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Devinder Singh (JC-498962L), 07 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sikander Singh (JC-499039A), 05 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balkar Singh (JC-499040P), 05 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jaspal Singh (JC-499041X), 05 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Amir Singh (JC-499081Y), 05 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gurjit Singh (JC-499142L), 07 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dalbir Singh (JC-499160N), 31 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Pritam Singh (JC-499205H), 11 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balwinder Singh (JC-499240L), 25 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Major

Sub Satgur Singh (JC-219708Y), 21 Apr 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

To be Subedars

Nb Sub Daler Singh (JC-499236H), 20 Mar 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Joga Singh (JC-499161W), 12 Feb 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jasbir Singh (JC-499180F), 21 Apr 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lal Singh (JC-499156L), 01 Mar 2005

Nb Sub Kuldip Singh (JC-499148M), 09 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dalbir Singh (JC-499167X), 02 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ranjit Singh (JC-499222H), 21 Apr 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Joginder Singh (JC-499226Y), 03 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rattan Singh (JC-499008A), 01 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 04 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Amrik Singh (JC-499009H), 01 May 2005

Nb Sub Kewal Singh (JC-499149P), 09 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sukhchain Singh (JC-499130W), 02 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gian Singh (JC-499128Y), 01 May 2005

Nb Sub Gurmit Singh (JC-499139L), 03 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kuldip Singh (JC-499190L), 01 May 2005

Nb Sub Gurdial Singh (JC-499200K), 01 May 2005

To be Substantive Subedars Clerk

Nb Sub (Clk) Ram Vashishth Rai (JC-498968M), 01 Apr 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub (Clk) Kishori Lal (JC-498959L), 03 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub (Clk) Yash Paul Sharma (JC-498969P), 01 May 2005

#### THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Sarves Singh (No. 2676023Y now JC-449909W), 27 Oct 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Puran Singh (No. 2676809L now JC-449910L), 01 Oct 2004

Hav Shrawan Dan (No. 2683056M now JC-449911N), 28 Feb 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Rama Shanker Singh (No. 2676319X now JC-449912W), 28 Feb 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Zafar Ali Khan (No. 2676365M now JC-449913Y), 01 Feb 2005

Hav Abdul (No. 2675527A now JC-449914F), 01 Feb 2005

Hav Nisar Ahmed (No. 2676188X now JC-449915K), 01 Feb 2005

Hav Rajinder Singh (No. 2677412L now JC-449916M), 01 Feb 2005

Hav/Clk Hirday Narayan Singh (No. 2679015L now JC-449917P), 01 Jan 2005

Hav/Clk Harkesh Lal (No. 2679019F now JC-449918X), 01 Feb 2005

Hav/Clk Sat Prakash (No. 2679029L now JC-449919A), 01 Feb 2005

Hav/Clk Satbir Singh Yadav (No. 2679046L now JC-449920P), 01 Feb 2005

DIWAKAR  
Under Secy.

No. 477, dated 8th September 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### REMOUNT AND VETERINARY CORPS

To be Nb Ris

#### CERTIFICATE

Promotions of the following NCOs to Nb Ris:—

Dfr (DSR) Vijayan K (No. 7237985N now JC-797310Y), 01 Nov 2003

Dfr (Clk) AK Parhi (No. 7238810X now JC-797311F), 01 Nov 2003

Dfr (Clk) HP Singh (No. 7238811A now JC-797312K), 01 Nov 2003

Dfr (FARR) BK Pathak (No. 7238654Y now JC-797313M), 01 Nov 2003

Dfr (RDR) JPC Raja (No. 7238632A now JC-797314P), 11 Oct 2003

Dfr (RDR) Gulab Singh (No. 7240609L now JC-797315X), 11 Oct 2003

Dfr (RDR) Sado Kandulna (No. 7238932F now JC-797316A), 11 Oct 2003

Dfr (RDR) Sunil Kumar Suman (No. 7238944W now JC-797317H), 11 Oct 2003

Dfr (RDR) Bhim Sain (No. 7238951M now JC-797318L), 11 Oct 2003

Dfr (RDR) Mahavir Singh (No. 7238974N now JC-797319N), 11 Oct 2003

Dfr (RDR) Rohtas (No. 7239146P now JC-797320H), 01 Nov 2003

Dfr (RDR) Ram Kishan (No. 7239217L now JC-797321L), 01 Dec 2003

Dfr (ADT) GR Rao (No. 7238753F now JC-797322N), 01 Dec 2003

RDM (FARR) Shiv Rattan (No. 7238424A now JC-797323W), 01 Dec 2003

Dfr (DSR) Bhagya Narayan Kumar (No. 7238032X now JC-797324Y), 01 Dec 2003

Dfr (Clk) Hori Lal (No. 7238837P now JC-797325F), 01 Dec 2003

Dfr (DSR) Suraj Bhan (No. 7238153Y now JC-797326K), 01 Jan 2004

Dfr (DSR) Mohan Raje (No. 7238246N now JC-797327N), 01 Jan 2004

Dfr (RDR) Prahlad Singh (No. 7239223Y now JC-797328P), 01 Jan 2004

Dfr (RDR) Raghubir Prasad (No. 7238303X now JC-797329X), 11 Oct 2003

Dfr (RDR) Hajari Singh (No. 7239310M now JC-797330M), 01 Jan 2004

Dfr (RDR) Sukumar Ray (No. 7239321Y now JC-797331P), 10 Jan 2004

Dfr (RDR) Divakar Pandey (No. 7239153L now JC-797332X), 01 Dec 2003

Dfr (Clk) Manjit Singh (No. 7238882F now JC-797333A), 01 Apr 2004

Dfr (Clk) Mahi Pal (No. 7238888H now JC-797334H), 01 Apr 2004

Dfr (DSR) Mohd Azam (No. 7237874P now JC-797335L), 11 Apr 2004

Dfr (RDR) Rajendra Singh (No. 7239112F now JC-797336N), 11 Apr 2004

Dfr (RDR) Dinesh Kumar (No. 7240759F now JC-797337W), 27 Jun 2004

Dfr (DSR) Joseph Lakra (No. 7238022N now JC-797338Y), 27 Jun 2004

Dfr (Clk) Raj Kumar (No. 7240259K now JC-797339F), 01 Aug 2004

Dfr (ADT) RN Gochhayat (No. 7238644P now JC-797340W), 01 Aug 2004

Dfr (RDR) Sunil Kumar (No. 7240822L now JC-797341Y), 01 Aug 2004

Dfr (Clk) Raj Kumar (No. 7238819M now JC-797342F), 01 Sep 2004

Dfr (Clk) S Padmajan (No. 7238821K now JC-797343K), 01 Sep 2004

Dfr (Clk) Mohammad Ali (No. 7238896F now JC-797344M), 01 Oct 2004

Dfr (DSR) Shri Ram (No. 7238305P now JC-797345P), 01 Oct 2004

Dfr (DSR) Ravindra Nath Rai (No. 7238357L now JC-797346X), 01 Oct 2004

Dfr (DSR) Brajesh Sharma (No. 7238347F now JC-797347A), 01 Oct 2004

Dfr (DSR) Upendra Nath Singh (No. 7238360L now JC-797348H), 01 Oct 2004

RDM (FARR) Chander Deep Singh (No. 7238612M now JC-797349L), 01 Oct 2004

RDM (FARR) Ram Prasad (No. 7238709P now JC-797350A), 01 Oct 2004

Dfr (RDR) Binod Murmu (No. 7238633H now JC-797351H), 01 Nov 2004

Dfr (DSR) Chandra Bushan Choubey (No. 7238359W now JC-797352L), 01 Nov 2004

Dfr (DSR) Janak Raj (No. 7238618N now JC-797353N), 01 Nov 2004

Dfr (RDR) Ganesh Prasad Yadav (No. 7238943N now JC-797354W), 01 Nov 2004

Dfr (DSR) Ram Awadh Ram (No. 7238630P now JC-797355Y), 01 Dec 2004

M. M. SINGH  
Under Secy.

No. 478. dated 7th September 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

### ARMoured CORPS

(To be Substantive Risaldar Major)

Ris Mira Bax Singh Sombaoshi (JC-236656K), 05 Dec 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 30 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Ris Randhir Pal Singh (JC-236318M), 01 Feb 2004

Ris Jagat Singh (JC-237364N), 01 Mar 2004

Ris Rulda Singh (JC-236551A), 20 Mar 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Ris Manna Vijaya Bhaskar Rao (JC-237714P), 01 Apr 2004

Ris Sarvjit Singh (JC-237290K), 01 Aug 2004

Ris Ompal Singh (JC-236998X), 02 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Ris Devendra Singh (JC-236070N), 08 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Ris Rameshwar Lal Mund (JC-238014M), 01 Nov 2004

Ris Purkha Ram (JC-237819Y), 24 Dec 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Ris Chaman Singh (JC-237061Y), 01 Dec 2004

Ris Ramesh Chand Rana (JC-237706W), 10 Dec 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Ris Ratan Singh Rajput (JC-237627F), 07 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Ris Fakeer Chand (JC-238031N), 01 Feb 2005

Ris/Cik (GD) Sakinder Singh (JC-236792A), 04 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS  
Under Secy.

No. 479, dated 13th September 2005.—The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78, as amended vide AI 4/96:—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### PERMANENT COMMISSION

Col to be Surg CMDE

DR-10311F Rakesh Mittal (79066W), 30 Apr 2005—  
with notional seniority from 01 Apr 2005, without effect on pay & allowances.

The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended vide AI 11/02:—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### (PERMANENT COMMISSION)

Major to be Lt Col

DR-10444X Sundeep Roy, 28 May 2005

DR-10428A EM Gowda, 29 May 2005

The President is pleased to make the following promotion (DPC) under AI 37/78 as amended vide AI 11/02:—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### (PERMANENT COMMISSION)

Capt to be Major

DR-10562L Saurabh Bhatia, 18 Mar 2005

DR-10517Y CS Chattopadhyay, 19 Apr 2005

DR-10568M Manab Kosala, 27 Apr 2005

DR-10564W Capt Nishant, 06 May 2005

Lt to be Capt

DR-10578W Rangarajan H, 25 Mar 2005

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79, as amended vide AI 10/02:—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### SHORT SERVICE COMMISSION

Lt to be Capt

DS-12133H Manish Mittal, 30 May 2005

DS-12134L Manoj Kumar, 06 Jun 2005

DS-12135N Gaurav Garg, 09 Jun 2005

DS-12136W Bhanu Sharma, 11 Jun 2005

DS-12137Y Navin Kaul, 23 Jun 2005

DS-12138F (Ms) Veeranjali Sawant, 24 Jun 2005

DS-12148L Deepu Jacob, 16 Apr 2005

DS-12128X Joydip Basak, 18 Apr 2005

DS-12129 A Chander Prakash, 21 Apr 2005

DS-12130P Ravi Shanker, 22 Apr 2005

DS-12131X Amit Jain, 23 Apr 2005

DS-12132A Tarun Dabra, 30 Apr 2005

PARAMJIT SINGH  
Maj Gen  
Addl DGDS

No. 480, dated 12th September 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC No., Name and Arm

IC-56848 Ranjeet Goswami, Arty

IC-42675 Ravi Raj Singh, AC



IC-46870 Sondipon Das, Arty  
 IC-54967 Rajesh RN, Arty  
 IC-52834 Vinod Kumar Shahi, AD Arty  
 IC-54955 Rajesh Kumar, AD Arty

—16 Dec 2004—

RC No., Name and Arm  
 RC-00826 Shivaji Tukkar, Inf  
 RC-00957 G Rajaraman, Sigs  
 RC-00984 Rabi Shankar Pandey, Inf  
 RC-01002 Haridasan K. AC  
 RC-01094 Tarsen Chand Rana, Int

—16 Dec 2004—

#### PERMANENT COMMISSION (SL)

Capt to be Maj

SL No., Name and Arm  
 SL-4262 Venkat Narayan, SL QM  
 SL-4305 Vidhyadhar Singh Meel, SL BR  
 SL-4406 Dharm Pal Singh, SL RO  
 SL-4690 MIS Gill, SL APTC

—16 Dec 2004—

SL-4617 P Rajangam, SL RO

—24 Apr 2005—

SL-4085 Puran Singh Rakwal, SL RO

—16 Dec 2004—

CHANDER PARKASH

Dy Dir  
 MS-8C

No. 481, dated 13th September 2005.—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following Officers:—

IC No., Rank, Name, Arm and D.O. Subs Maj Gen

IC-19873 Brig Puttammadam Rajah Gangadharan, VSM, MLI—03 Jan 2003

IC-19891 Brig Sivasankara Pillai Sree Kumar, Sigs—01 Sep 2003 with seniority from 07 Jan 2003 without effect on pay and pension.

IC-19946 Brig Davindar Kumar Datta, ASC—01 Feb 2003

IC-23034 Brig Surinder Bir Singh Bains, Engrs—03 Mar 2003

The President is pleased to make substantive promotions of Brigadier to the following Corps of Engrs officers seconded to Survey of India:—

IC No., Rank, Name & Arm and Date of Substantive Brigadier

IC-35039 Col Hari Singh, Engrs—26 Dec 2003

IC-34322 Col PS Samudra, Engrs—31 Dec 2003

N. MARIAPPAN  
 Jt. Director/MS(X)

No. 482, dated 12th September 2005.—The President is pleased to make the following promotion:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

IC-35813P Lt Col HP Thapliyal, Engrs—16 Dec 2004

IC-39833A Lt Col SS Dhankhar, EME—13 Jun 2005

IC-36736X Lt Col Surendra Singh, AOC—16 Dec 2004

IC-37067W Lt Col Balbir Singh, AC—16 Dec 2004

IC-37155M Lt Col PM Meena, Engrs—16 Dec 2004

IC-38123W Lt Col Rajagopalan Suresh, Inf—09 Jun 2005

IC-38132X Lt Col Naresh Chandra Raval, Arty—09 Jun 2005

IC-27741 Lt Col NP Kumar, Sigs—16 Dec 2004

IC-30178 Lt Col CKS Thapa, Inf—16 Dec 2004

IC-31456 Lt Col DS Raghavan, Arty—16 Dec 2004

IC-35573 Lt Col JS Gill, Arty—16 Dec 2004

IC-37072 Lt Col MJ D'Souza, Inf—16 Dec 2004

IC-34744X Lt Col Avinash Ambadas Pustake, Engrs—16 Dec 2004

IC-24681M Lt Col SK Maini, Arty—16 Dec 2004

IC-30948M Lt Col Ram Mehar Singh, MF—16 Dec 2004

IC-33857N Lt Col NK Sharma, Engrs—16 Dec 2004

IC-35439X Lt Col PK Pradhan, EME—16 Dec 2004

IC-36132Y Lt Col P Mehta, Inf—16 Dec 2004

AJAY GOEL

Dy Dir  
 MS-8A

No. 483, dated 09th September 2005.—The President is pleased to make the following promotion:—

#### TERRITORIAL ARMY

#### TERRITORIAL COMMISSION

To be Capt

Lt Karni Singh Deshpande (TA-42328), Infantry—03 Feb 2004

B K MALHOTRA  
 Under Secy.

# DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 484, dated 12th September 2005.—The President is pleased to make the following promotion:—

Dr. K Ramachandra, Scientist 'G', Director GTRE, Bangalore to be Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in Defence Research & Development Service with effect from 01 Jul 2005 (F/N) in the pay Scale of Rs. 22400-525-24500 in the same appointment.

Shri PR Baghel, Scientist 'E' of RCMA (N), Ojhar Township, to be Scientist 'F' in DRDS in the same Lab with effect from 01 July 2005 (F/N) in the pay Scale of Rs. 16400-450-20000.

Shri Kamal Kishore Thaper, Scientist 'F' of ADRDE, Agra Cantt., to be Scientist 'G' in DRDS in the same Lab with effect from 01 July 2005 (F/N) in the pay Scale of Rs. 18400-500-22400.

Shri Uday Nanal, Scientist 'C' of RCMA (AA), Pune, to be Scientist 'D' in DRDS in the same Lab with effect from 01 July 2005 (F/N) in the pay Scale of Rs. 12000-375-16500.

The President is pleased to promote the following Scientists of DEAL, Dehradun from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2005 (F/N) as mentioned against each:—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted and Pay Scale of promoted Grade

Shri KN Rao, Sc'F' (Sc'G')—Rs. 18400-500-22400  
 Shri Shiv Om Rajoo, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri KS Bist, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri MC Khulbe, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri Virendra S Rathi, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri NK Bansal, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri SS Bisht, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Dr. Sangeeta Khare, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri Shanker Mahto, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri GC Pandey, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri Vipin Kumar Kaushik, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri Mannj Kumar Dhaka, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri Pinaki Sen, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri Rajveer Singh, Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500  
 Shri Umesh Bahuguna, Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500

Shri Maahesh M. Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500

Shri Gopal Patel, Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500

Shri Yasvir Singh Negi, Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500

Shri Pankaj Kumar, Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500

The President is pleased to promote the following Scientist of CVRDE, Chennai from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2005 (F/N) as mentioned against each:—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted and Pay Scale of promoted Grade

Shri TS Balasubramanian, Sc'F' (Sc'G')—Rs. 18400-500-22400  
 Shri S Satyamurthy, Sc'F' (Sc'G')—Rs. 18400-500-22400  
 Shri K Loganathan, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri BI Ravi, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri Y Swaminathan, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri M Sivanandam, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri J Roop Chand, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri U Solomon, Sc'E' (Sc'F')—Rs. 16400-450-20000  
 Shri KR James Victor Raj, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri P Viswanathan, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri MA Muthumanickam, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri N Seetharaman, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri PD Jayaram, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri S Muralidhar, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri K Parthiban, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri M Salvam, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri N Thiagarajan, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri S Srinivasa Rao, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri V Balanmurugan, Sc'D' (Sc'E')—Rs. 14300-400-18300  
 Shri A. Manivannan, Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500  
 Shri MR Radhakrishnan, Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500  
 Shri N. Sivaprakasam, Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500  
 Shri V. Padmanabhan, Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500

Shri A. Devarpiran, Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500

Smt. P. Akilandeswari, Sc'C' (Sc'D')—Rs. 12000-375-16500

The President is pleased to promote the following Scientists of SSPL from their existing grade to the next higher grade w.e.f. 01.07.2005 as mentioned against each:—

Name, Existing Grade, Grade to which Promoted and Pay Scale of Promoted Grade

Dr. Harsh, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 18400-500-22400

Dr. R Muralidharan, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 18400-500-22400

Shri Adarsh Kumar, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16400-450-20000

Shri Anil Kumar Gupta, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16400-450-20000

Shri BS Matheru, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16400-450-20000

Shri CR Jalwania, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16400-450-20000

Shri ZAD Khan, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16400-450-20000

Shri Man Mohan Singh, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16400-450-20000

Dr. Chandra Prakash, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16400-450-20000

Shri Manoj Umesh Sharma, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16400-450-20000

Dr. VK Gandotra, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14300-400-18300

Shri BL Sharma, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14300-400-18300

Shri Anupama Singh, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14300-400-18300

Smt. Meena Mishra, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14300-400-18300

Shri CP Kulkarni, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14300-400-18300

Dr. Nitendar Kumar, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14300-400-18300

Dr. SP Chowdhury, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12000-375-16500

Smt. Tanzeem Karimi, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12000-375-16500

Shri A Theodore Nimal, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12000-375-16500

The President is pleased to promote the following Scientists of DEBEL, Bangalore from their existing grade to the next grade w.e.f. 01.07.2005 (F/N) as mentioned against each:—

Name, Existing Grade, Grade to which Promoted and Pay Scale of Promoted Grade

Dr. VC Padaki, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 18400-500-22400

Dr. PP Krishnapur, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16400-450-20000

Shri GSN Murthy, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14300-400-18300

Dr. NS Kumar, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14300-400-18300

Shri R Ramjee, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12000-375-16500

Smt. SN Vijayalakshmi, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12000-375-16500

The President is pleased to promote the following Scientist of LRDE, Bangalore from their grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2005 (F/N) as mentioned against each:—

Name, Existing Grade, Grade to which Promoted and Pay Scale of Promoted Grade

Shri CR Raghunath, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 18,400-500-22,400

Shri GSN Raju, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 18,400-500-22,400

Shri PK Banerjee, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000

Shri TS Pranesha Murthy, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000

Shri Joseph Methew, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000

Shri KSS Prakash, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000

Shri TV Prakash Rao, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000

Shri J Venkataraman, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000

Shri P Radhakrishna, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000

Smt. Margaret A Nalini, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000

Dr. M. Nagarajan, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300

Shri J Sundara Moorthy, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300

Shri VA Abid Hussain, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300

Shri NVM Prakash, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri V Rajagopalan, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri HKL Jois Srinath, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri D Rajagopal, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri N Ramakrishna Pillai, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri Harish Chandra, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri M Arokia Swamy, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri S Pazhanivel, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri KM Veerabhadra, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri Ajai Kumar Pathak, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of GTRE, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2005 (F/N) as mentioned against each:—

Name, Existing Grade, Grade to which Promoted and Pay Scale of Promoted Grade

Shri G Devananda, Sc'F' (Sc 'G')—Rs. 18,400-500-22,400  
 Dr. Venkataraman Shanker, Sc'F' (Sc 'G')—Rs. 18,400-500-22,400  
 Dr. HR Nataraja, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Shri C Ramanatha, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Shri PN Srinivasa Murthy, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Shri D Narasreddy, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Shri RK Hemaender, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Shri M Shambhulingaiah, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Dr. A Aruna, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Shri N Muthuvenrappan, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Shri U Chandrasekhar, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Shri P Balasubramanian, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Shri TN Suresh, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Shri Debabrata Roy, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Dr. Surendrakumar Patel, Sc'E' (Sc 'F')—Rs. 16,400-450-20,000  
 Shri V Thangavelu, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300  
 Shri Anil Kumar Vidyarthi, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300  
 Shri Pravinkumar Kamanat, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300  
 Shri GS Ramakrishna, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300  
 Shri SE Narayanaraju, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300  
 Smt. K Banumathy, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300  
 Shri Ranjan Kumar Mishra, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300  
 Shri TN Satish, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300  
 Smt. B Githanjali, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300  
 Shri M Venkateshwaralu, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300

Shri SV Ramanamurthy, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300

Shri R Sathyanarayanan, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri C Ayyappan, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri T Hemchand, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri BK Jha, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

Shri Sanjay Mata, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of MTRDC, Bangalore from their existing grade to the next grade w.e.f. 01.07.2005 (F/N) as mentioned against each:—

Name, Existing Grade, Grade to which Promoted and Pay Scale of Promoted Grade

Shri Sushil Raina, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300

Shri Mrityunjay Santra, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300

Shri S Subramanian, Sc'D' (Sc 'E')—Rs. 14,300-400-18,300

Shri P Sidharthan, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12000-375-16500

Shri Meduri Ravi, Sc'C' (Sc 'D')—Rs. 12000-375-16500

JK KHADWAL  
 Joint Director (Pers)

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 485, dated 13th September 2005.—In Ministry of Defence Gazette Notification No. 954/90 published in the Gazette of India on 06 April 1990 under the heading "REGULAR ARMY"—ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) Sub heading 'To be Lieut (On Probation)' against the name of DS-11744L (Ms) Meenakshi Sharma, BDS Nagpur—15 Jan 90.

Read—

with seniority for pay and promotion from 15 July 89 (includes 6 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity)

In Ministry of Defence Gazette Notification No. 413/95 published in the Gazette of India on 24 Jun 1995 under the heading "REGULAR ARMY"—ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) Sub heading 'Lt to be Capt' against the name of DS-11744L (Ms) Meenakshi Sharma.

For—15 Jan 1992

Read—15 Jul 1991

In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 22nd Feb 97 under the heading

"REGULAR ARMY"—ARMY DENTAL CORPS  
(PERMANENT COMMISSION) Sub heading 'Capt to be Maj'  
in so far as it relates to Meenakshi Sharma (DR-10432H)  
against her name.

*For*—15 Jul 96

*Read*—15 Jan 96

In Ministry of Defence Gazette Notification published in  
the Gazette of India on 29th Jan 2005 under the heading

"REGULAR ARMY"—ARMY DENTAL CORPS  
(PERMANENT COMMISSION) Sub heading 'Maj to be Lt  
Col' against the name of DR-10432H (Ms) Meenakshi  
Sharma.

*For*—15 Jul 2004

*Read*—15 Jan 2004

PARAMJIT SINGH

Maj Gen

Addl DGDS